

# गौरवशाली भारत

नई दिल्ली से प्रकाशित

RNI No .DELHIN/2011/38334

वर्ष : 12

अंक : 55

पृष्ठ : 08

नई दिल्ली

शुक्रवार 09 सितंबर 2022

मूल्य : 1.50/-

मुख्य अपडेट

पेज 3

पंजाब के वित्त मंत्री द्वारा पंजाब राज्य सहकारी बैंक के साथ जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के विलय के लिए केंद्र से समर्थन की मांग

पेज 5

गोरखपुर रेलवे स्टेशन से युवती को अगवा कर गैरगैर, विरोध पर पीटा, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती

पेज 7

अपने बयानों पर झूठे इमरान खान, महिला जज के खिलाफ अपनी टिप्पणी पर जताया अफसोस



गार्ड ऑफ ऑनर

केंद्रीय रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह 08 सितंबर, 2022 को टोकयो में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए।

## पीएम ने किया सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन

मोदी बोले- गुलामी का प्रतीक राजपथ अब कर्तव्यपथ बन गया, हम कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम 8 बजे इंडिया गेट के सामने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। वे शाम 7 बजे कर्तव्य पथ पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। 19 महीने तक लगातार चले काम के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर तैयार हुआ है।

पीएम मोदी ने कहा- आजादी के अमृत महोत्सव में, देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर, आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है।

उन्होंने कहा कि गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ, आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृतकाल में, गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

मोदी के स्पीच की 5 बड़ी बातें

1. हमने नेताजी को भुला दिया : आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्रनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहाँ ब्रिटिश राजसत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी।



आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक, सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है।

सुभाष चंद्र बोस ऐसे महा मानव थे, जो पद और संसाधनों की चुनौती से परे थे। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। उनमें साहस था, स्वाभिमान था। उनके पास विचार थे, विज्ञान था। उनमें नेतृत्व की क्षमता थी, नीतियाँ थीं।

अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊँचाइयों पर होता! लेकिन दुर्भाग्य से, आजादी के बाद हमारे इस महानायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया।

2. यह बदलाव प्रतीकों तक ही सीमित नहीं : आज भारत के संकल्प

और लक्ष्य अपने हैं। हमारे प्रतीक और पथ अपने हैं। आज राजपथ का अस्तित्व खत्म हुआ है तो ये गुलामी की मानसिकता का पहला उदाहरण नहीं है। राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है, और इसकी आत्मा भी बदली है। यह निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। देश के प्रधानमंत्री जहाँ रहते आए हैं। वह लोक कल्याण मार्ग हो चुका है। परेड में भारतीय संगीत बजता है। नौसेना ने हमारे इस महानायक को भुला दिया है। यह बदलाव प्रतीकों तक ही सीमित नहीं है।

3. हमें भारत का निर्माण करना ही होगा : अंग्रेजों के कई कानून आज



बदल गए हैं। भारतीय शिक्षा नीति को भाषा की गुलामी से मुक्त किया जा रहा है। महाकवि भरतियार ने भारत की महानता को लेकर तमिल भाषा में कविता लिखी थी, जिसका अर्थ है हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। वीरता में करुणा में जीवन के सत्य को खोजने में हमारा देश भारत दुनिया में सबसे महान है। उनकी कविता का एक-एक शब्द गुलामी के दौरान भारत की हुंकार थी। हमें इस कविता में बताए गए भारत का निर्माण करना ही होगा। इसका रास्ता कर्तव्यपथ से होकर जाता है।

4. कर्तव्यपथ से कर्तव्य के लिए प्रेरणा मिलेगी : कर्तव्य पथ केवल ईंट-पत्थरों का रास्ता भर नहीं है। ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग है। यहाँ जब देश के लोग आएंगे, तो नेताजी की प्रतिमा, नेशनल बार्ड मेमोरियल, ये सब उन्हें कितनी बड़ी प्रेरणा देंगे, उन्हें कर्तव्यबोध से ओत-

प्रोत करेंगे।  
5. नई संसद श्रमिकों की गैलरी बनेगी : जब मैं इसे बनाने वाले श्रमिकों से मिला तो मैंने उनसे कहा कि जिन्होंने यहाँ पर काम किया है वो परिवार के साथ 26 जनवरी के कार्यक्रम में मेरे विशेष अतिथि रहेंगे। दिल्ली जब नीतियों में संवेदनशीलता आती है तो निर्णय भी उतने ही संवेदनशील होते हैं। जब बनारस में काशी का निर्माण होता है तो श्रमिकों पर भी पुष्प वर्षा होती है। मैंने उनसे मिलकर उनका आभार व्यक्त किया।  
आपको जानकर अच्छा लगेगा कि नई संसद के निर्माण के बाद उसमें काम करने वाले श्रमिकों को भी एक गैलरी में स्थान दिया जाएगा। आज के इस अवसर पर मैं अपने उन श्रमिक साथियों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने कर्तव्यपथ को केवल बनाया ही नहीं है, बल्कि अपने श्रम की पराकाष्ठा से देश को कर्तव्य पथ दिखाया भी है।

## ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन

स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कासल में क्वीन ने ली अंतिम सांस

लंदन। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की हालत नाजुक है। महारानी 96 साल की हैं। डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल सुपरविजन में रखा है। बकिंघम पैलेस की ओर से महारानी की हेल्थ पर बयान जारी किया गया है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर महामहिम के स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं।

स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कासल में उनका इलाज चल रहा है। द टेलीग्राफ की खबर की मुताबिक, क्वीन के परिवार के लोग अब बाल्मोरल कासल में पहुंचने लगे हैं। बीबीसी के अनुसार प्रिंस विलियम, एंड्र्यू और एडवर्ड स्कॉटलैंड के एबरडीन एयरपोर्ट पर उतर कर बाल्मोरल कासल की ओर निकल गए हैं। साथ में ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज, ड्यूक ऑफ यॉर्क भी हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज टूस ने भी इस



खबर पर चिंता जताई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा- बकिंघम पैलेस की खबर से पूरा देश चिंतित होगा। मेरे विचार और हमारे यूनाइटेड किंगडम के लोगों के विचार इस समय महारानी और उनके परिवार के साथ हैं।

बकिंघम पैलेस की गार्ड चेंजिंग सेरेमनी रद्द

लंदन के बकिंघम पैलेस में होने वाली

गार्ड चेंजिंग को रद्द कर दिया गया है। सेरेमनी के दौरान जहां पर यात्री जुटते हैं ठीक उसी जगह पर एक बोर्ड लगा दिया गया है।

इससे पहले महारानी की प्रीवी कॉउंसिल यानी गुप्त जानकारी के संबंधित मंत्रीपरिषद की वरचूअल मीटिंग भी रद्द कर दी गई थी।

70 साल तक राजशाही को संगमले रखी एलिजाबेथ

क्वीन एलिजाबेथ 2 जून 1953 को ब्रिटेन की महारानी के पद पर आसीन हुई थीं। जब एलिजाबेथ क्वीन बनीं तब दुनिया ही नहीं ब्रिटेन में भी राजशाही पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन महारानी एलिजाबेथ ने तमाम विरोध के बावजूद शाही परिवार के रुखे और असर को बरकरार रखा।

## नीट में फेल होने पर दो लड़कियों ने किया सुसाइड

रिजल्ट आने के बाद तमिलनाडु में छात्रा ने लगाई फांसी, जोएडा में 19वीं मंजिल से कूटी लड़की

चेन्नई। तमिलनाडु के चेन्नई में नीट परीक्षा में फेल होने पर 19 साल की एक लड़की ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। यह घटना बुधवार की है। इसी दिन यानी 7 सितंबर को नीट का रिजल्ट घोषित हुआ था।

घटना का पता चलते ही लड़की के परिवार वाले उसे केएमसी अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक, नीट एग्जाम में तमिलनाडु के 1 लाख 32 हजार 167 लोगों ने दी थी, जिनमें केवल 67 हजार 787 बच्चे ही पास हुए।

वहीं ग्रेटर नोएडा में NEEET की परीक्षा में फेल होने पर एक छात्रा ने



19वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। घटना गुरुवार दोपहर की है। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के सेक्टर-151 स्थित अमन सोसाइटी में रहने वाली 22 साल की छात्रा संपदा ने टावर नंबर सात के 19वीं मंजिल से छलांग लगाई है। युवती के नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। बुधवार देर रात रिजल्ट जारी होने

के बाद से छात्रा सदमे में थे। अगले दिन दोपहर में उसने जान दे दी। संपदा अपने परिवार के साथ इस सोसाइटी में रहती थी। परिवार वालों से बात करने की कोशिश की तो वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

पहला मामला

तमिलनाडु के तेनकासी जिले में राजलक्ष्मी नाम की एक लड़की ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। घटना 2 सितंबर की है। उसे नीट एग्जाम में फेल होने का डर था, इसलिए उसने रिजल्ट आने से

पहले यह कदम उठा लिया। राजलक्ष्मी का यह तीसरा अटेम्प्ट था। उसे इस बार भी डर था कि वह फेल न हो जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजलक्ष्मी के पिता ने बताया कि राजलक्ष्मी ने उन्हें बाजार जाकर नाश्ता लाने को कहा और वह चले गए। जैसे ही वह घर आए तो देखा कि बेटी फंदे पर लटकती हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि राजलक्ष्मी कई दिनों से डिप्रेशन में भी थी।

दूसरा मामला

16 जुलाई को तमिलनाडु के अरियालूर में नीट की एक स्टूडेंट ने एग्जाम के डर से सुसाइड कर लिया

था। लड़की के पास से एक नोट मिला था। जिसमें उसने लिखा था कि 17 जुलाई को नीट का एग्जाम होना है और उसे इस बात का डर है कि वह फेल हो जाएगी। इसी डर से वो यह कदम उठा रहे हैं।

हालांकि, उसने 2020-21 में भी एग्जाम दिया था, जिसमें 529 नंबर आने पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने इस साल भी एग्जाम की तैयारी की थी, लेकिन उसे लगा उसका सिलेक्शन इस बार भी नहीं होगा। वहीं लड़की के परिवार ने बताया था कि उनकी तरफ से कभी भी पढ़ाई को लेकर कोई प्रेरण नहीं था। वह अपनी मर्जी से ही नीट की तैयारी कर रही थी।

## कोविड-19 : घटने वाले मरीजों की संख्या रही कम

नयी दिल्ली। देश में कल की तुलना में गुरुवार को सक्रिय मामले घटने की संख्या काफी कम रही है, जिससे पिछले 24 घंटे में 252 ही कोरोना मामले घटे हैं और अब सक्रिय आंकड़ा गिरकर 50342 रह गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि सुबह सात बजे तक 214.27 करोड़ टीके दिये जा चुके हैं। इसी अवधि में कोरोना वायरस के 6,395 नए मामले सामने आने संक्रमितों की

कुल संख्या 4,44,78,636 हो गयी है और इस महामारी से 19 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 528090 तक पहुंच गई है। दैनिक संक्रमण दर 1.96 प्रतिशत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान इस महामारी से 6,614 लोगों के मुक्त होने से इनकी संख्या बढ़कर 4,39,00,204 हो गयी है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3,25,602 कोविड परीक्षण किए गये हैं। देश में

कुल 88.83 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण किए हैं देश में स्वस्थ होने की दर 98.7 प्रतिशत है। सक्रिय मामलों का की दर 0.11 प्रतिशत है और मृत्युदर 1.19 फीसदी है। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 510 नए मामले सामने आने से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 10659 हो गया है इसी अवधि में कोरोना महामारी से उबरने वालों की संख्या बढ़कर 6683863 हो गई है।

## निहंगों ने युवक को तलवार से काटा

नशीला पदार्थ खाने से रोका था, हाथापाई के दौरान पगड़ी उतरने पर की हत्या

अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में बीती रात गोल्डन टेंपल की तरफ जाने वाले रास्ते में एक युवक का दो निहंगों के साथ झगड़ा हो गया। युवक ने शराब पी रखी थी और निहंग सिखों के सामने हाथ में पकड़ा नशीला पदार्थ मुंह में डालने लगा। इसी दौरान उनका झगड़ा हो गया।

झगड़े में एक निहंग सिख की पगड़ी (दस्तार) उतर गई और गुस्से में दो निहंगों और एक सिख युवक ने मिलकर युवक पर तलवार से हमला कर दिया। घटना में बुरी तरह घायल युवक की मौत हो गई। निहंगों के साथ युवक पर हमला करने वाले तीसरे सिख युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निहंग सिखों की पहचान चरणजीत सिंह व तरुणदीप सिंह के



तौर पर हुई है। यह घटना गोल्डन टेंपल के पास बाजार कड़यां वाला की है। तरनतारन रोड चाटीबिंड निवासी हरमनजीत सिंह (35) रात घर से गोल्डन टेंपल की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक होटल के सामने वह खड़ा था। उसने शराब पी रखी थी और उसके हाथ में कुछ नशीला पदार्थ था, जिसे वह मुंह में डालने लगा था। तभी दो निहंग सिख वहां से गुजरे। उन्होंने हरमनजीत सिंह को रोका और झगड़ा

शुरू हो गया। दोनों निहंगों व एक सिख युवक ने हरमनजीत के साथ हाथापाई शुरू कर दी।

इसी बीच एक निहंग की दस्तार उतर गई। जिसके बाद गुस्से में आकर निहंगों ने तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। जब युवक भागने लगा तो किर्च के साथ उसके सीने पर वार कर दिया।

मौके पर ही हुई हरमनजीत की मौत

दोनों निहंग सिखों ने इस कदर हरमनजीत सिंह को तेजधार हथियारों से काटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गए। जब तक पुलिस पहुंची हरमनजीत की मौत हो चुकी थी।

## मास्टरमाइंड गिरफ्तार डेढ़ किलो आरडीएक्स बरामद; पाक आईएसआई के टेरेर मॉड्यूल से जुड़ा, आतंकी रिंदा के टच में था

## कुरुक्षेत्र आईईडी का मास्टरमाइंड पंजाब में गिरफ्तार

एजेंसी

चंडीगढ़। पंजाब पुलिस ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंबाला-शाहाबाद हाइवे पर IED प्लांट करने के मास्टरमाइंड नचखतर सिंह और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे डेढ़ किलो RDX और 2 पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। शुरूआती जांच में पता चला कि नचखतर सिंह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के टेरेर मॉड्यूल का हिस्सा था।

नचखतर सिंह पाकिस्तान बेटे गैंगस्टर आतंकी हरविंदर रिंदा और कनाडा बेटे गैंगस्टर लखवीर सिंह लंडा के संपर्क में था। रिंदा और लंडा



इस टेरेर मॉड्यूल को हेंडल कर रहे थे। नचखतर सिंह से पूछताछ के बाद पंजाब पुलिस को उनके 25 साथियों के बबारे में पता चला है। जिनकी तलाश में रेड शुरू हो चुकी है।

15 अगस्त से पहले धमाका करने को लगाया था विस्फोटक

हरियाणा पुलिस ने 4 अगस्त को कुरुक्षेत्र में अंबाला-शाहाबाद हाइवे

करनाल में भी 4 आतंकीयों से मिल चुका साढ़े 7 किलो विस्फोटक

हरियाणा पुलिस ने मई महीने में बसताड़ा टोल प्लाजा पर एक इनोवा गाड़ी को पकड़ा। इसकी तलाशी लेने पर पुलिस को साढ़े 7 किलो विस्फोटक, पाकिस्तान मेड पिस्टल, मैगजीन, 31 जिंदा कारतूस, मोबाइल और 1.30 लाख केश बरामद किया गया था। पुलिस ने कार सवार 4 आरोपियों गुरप्रीत सिंह और उसके भाई अमनदीप सिंह निवासी फिरोजपुर, परभिंदर सिंह निवासी फिरोजपुर और भूपिंदर सिंह निवासी लुधियाना को पकड़ लिया। जांच में पता चला कि यह सभी आतंकी संगठन बम्बर खालसा से जुड़े हुए थे।

पर विस्फोटक बरामद किया था। जिसमें करीब 1.30 किलो RDX, टाइमर, बैटरी, डेटोनेटर और इनवर्टर लगा था। इसमें 9 घंटे का टाइमर लगा था। इससे साफ था कि आतंकीयों की मंशा 15 अगस्त से पहले धमाका करने

की थी। विस्फोटक को पेड़ के नीचे छुपाया गया था। पुलिस ने इस केस में शमशेर सिंह शरा को अरेस्ट किया था। जिसके बाद पता चला कि यह विस्फोटक पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजा गया था।







## शार्ट न्यूज

## नोएडा में जन्मदिन पार्टी में आई थिएटर कलाकार से बीमा कंपनी के मैनेजर ने किया दुष्कर्म

नोएडा। नोएडा के सेक्टर-75 को सोसाइटी में अपने दोस्त के पास जन्मदिन की पार्टी में आई महिला थिएटर कलाकार के साथ बीमा कंपनी में काम करने वाले मैनेजर ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। इसको लेकर युवती ने आरोपी के खिलाफ सेक्टर-113 थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस को दी गई शिकायत में युवती ने बताया कि वह दिल्ली के पहाड़गंज की रहने वाली है। युवती का एक थिएटर ग्रुप है। उनके थिएटर ग्रुप में कई लोग जुड़े हैं। तीन सितंबर को रात को सेक्टर-75 में रहने वाले विनय के फ्लैट में जन्मदिन पार्टी आयोजित की गई थी। इस पार्टी में थिएटर ग्रुप से जुड़े सभी लोग आए हुए थे। पार्टी में खाने-पीने का कार्यक्रम चल रहा था। युवती ने बताया कि खाना खाने के बाद उसे पार्टी में नशा हो गया। इसके बाद वह एक कमरे में सोने के लिए चली गई। युवती का आरोप है कि पार्टी में शामिल एक युवक, जो पूर्व में उनके थिएटर से जुड़ा था, वह कमरे में घुस गया। यहां पर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित युवती का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। युवती ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी मर्यादक एक जीवन बीमा कंपनी में मैनेजर है। वह तीन वर्ष पहले पीड़िता के थिएटर ग्रुप से जुड़ा था।

## नोएडा : जिम के बाहर आधा दर्जन लोगों ने किया युवक पर जानलेवा हमला, सिर में आई गंभीर चोट, हालत नाजुक

नोएडा। दिल्ली से सटे नोएडा में सेक्टर-46 के गार्डन गैलरिया बाजार स्थित एक जिम से एक युवक को बाहर बुलाकर उस पर आधा दर्जन लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में वह युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। थाना सेक्टर-39 के अंतर्गत हुई इस वारदात के को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। थाना सेक्टर-39 के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सफाबाद गांव निवासी अमित यादव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनका भाई अंकुश यादव सेक्टर-122 में रहता है और वह सेक्टर-46 स्थित जिम में एक्सरसाइज करने गया था। उन्होंने बताया कि पीड़ित का आरोप है कि बरौला गांव निवासी पृथ्वी अवाना 6-7 लड़कों को लेकर पहुंचा और उसने अंकुश यादव को जिम से बाहर बुलाकर उसके साथ मारपीट की। इस घटना में अंकुश के सिर पर गंभीर चोट आई है। अंकुश को इलाज के लिए सेक्टर-50 स्थित नियो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीम बनाकर दबिश दी जा रही है।

## नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 8 किलो 33 ग्राम गांजा सहित 1,59,950 रुपये नगद बरामद



ग्रेटर नोएडा। थाना इकोटेक श्री पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले अभियुक्त अजीत पुत्र बृजपाल निवासी-ठेकेवाली गली ग्राम सुल्याना थाना इकोटेक श्री गौतमदुनगर को ठेके वाली गली ग्राम सुल्याना से गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से पुलिस ने 8 किलो 33 ग्राम गांजा और अवैध रूप से बिक्री किये गये गांजे के 1,59,950 रुपये नगद बरामद किए हैं। अभियुक्त के अन्य साथी को 7 सितम्बर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। जिसके द्वारा बताया गया था की वह अभियुक्त अजीत के साथ मिलकर नशीले पदार्थ की तस्करी करता है। गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त शांति किस्म का गांजा तस्करी है। अभियुक्त के विरुद्ध लथमगा आधा दर्जन अपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। जिसके विरुद्ध पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है।

## संघमारी कर घरों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

ग्रेटर नोएडा। थाना बीटा टु पुलिस ने द्वारा संघमारी कर घरों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दो अभियुक्तों अनवर अली पुत्र रज्जाक अली निवासी ग्राम निवाडी खुर्द थाना वकेवर जिला इटावा वर्तमान पता प्रकाश प्रधान का मकान तुकलपुर थाना नॉल्लिजपार्क गौतमबुद्धनगर, राकेश उपाध्याय पुत्र शिवशंकर उपाध्याय निवासी ग्राम धारिकपुर थाना मंजुदुदु वारा जिला कासगंज वर्तमान पता एच-190 अल्फा-2 थाना बीटा टु गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के डोमिनोज गोल चक्कर के पास से गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने घर से चोरी किए गये 4,000 अमेरिकी डालर बरामद किए हैं। अभियुक्त शांति किस्म के अपराधी हैं जो रेकी करके बंद पडे मकानों में संघमारी कर घरों से चोरी करते हैं। अभियुक्तों द्वारा एक माह पूर्व सेक्टर अल्फा-2 से बंद मकान से 6,400 अमेरिकी डालर चोरी किये गये थे जिसमें अभियुक्त अनवर द्वारा डालर चोरी करके रूपयों में बदलने के लिए अपने सह-अभियुक्त राकेश उपाध्याय को दिये गये थे। राकेश उपाध्याय द्वारा चोरी किये गये डालरों को रूपयों में बदलवाया गया था आज भी अभियुक्त शेष 4000 डालरों को रूपयों में बदलवाने के लिए जा रहे थे। उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है।

## जेवर पुलिस ने नागेश हत्याकांड में वांछित 25,000 रुपए के इनामी को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा। जेवर पुलिस ने नागेश उर्फ बिलोरी हत्याकांड में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त दिलीप पुत्र भजन लाल निवासी ग्राम बिरजापुर थाना हाईवे जिला मथुरा को मुठभेड़ के उपरांत आदर्श नगर एक्सप्रेस वे अण्डरपास जेवर के पास से बुधवार को गिरफ्तार कर लिया पुलिस मुठभेड़ में उपरोक्त अभियुक्त पैर में पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। जिसे पुलिस द्वारा उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा तीन सौ पन्द्रह बार मय तीन कारतूस जिन्दा व एक कारतूस खोका और घटना में प्रयुक्त एक चोरी की मोटरसाइकिल हीरो स्पलेन्डर बरामद की है। गौरतलब है कि 1 सितम्बर 2022 को थाना जेवर पर वादी राज कुमार पुत्र मनवीर सिंह निवासी ग्राम नीमका थाना जेवर गौतमबुद्धनगर द्वारा तहरीर दी गई की उसके भाई नागेश उर्फ बिलोरी को अज्ञात अभियुक्तों से चमन पुत्र



जगतपाल निवासी ग्राम नीमका थाना जेवर गौतमबुद्धनगर द्वारा पडयन्त्र रचकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना जेवर पर मुकदमा अपराध संख्या 337/2022 धारा 147, 148, 149, 302, 120बी भादवि के तहत पंजीकृत किया गया था। जेवर पुलिस को चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त मोटरसाइकिल के साथ तेजी से आता दिखायी दिया जिसको रूकने का इशारा किया परन्तु वह नहीं रुका जिसपर पीछा करने में अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से माने की नियत से फायर किया गया। आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी द्वारा फायर किया गया जो गोली अभियुक्त के पैर में लगी जिसके उपरान्त अभियुक्त को घायल अवस्था

## दिल्ली भाजपा अधिवक्ता प्रकोष्ठ ने आप मुख्यालय के बाहर किया प्रचंड विरोध प्रदर्शन

## मधुशाला की चोरी पाठशाला के पीछे चुराने की कोशिश करने वाले केजरीवाल की दोनों चोरी पकड़ी गई : वीरेन्द्र सचदेवा

## प्रफुल्ल राय/गौरवशाली भारत

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा की अगुवाई में आज दिल्ली भाजपा अधिवक्ता प्रकोष्ठ ने आईटीओ चौक पर नई आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में जोरदार नारेबाजी करते हुए सभी अधिवक्ता आईटीओ चौक से आम आदमी पार्टी कार्यालय तक गए जहां उन्होंने मनीष सिंसोदिया को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की और उनके पुतले फूँके।

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि मधुशाला की चोरी पाठशाला के पीछे चुराने की कोशिश करने वाले



केजरीवाल की दोनों चोरी पकड़ी गई। आज आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार का जवाब केजरीवाल नहीं दे पा रहे हैं और जिस बूटे शिक्षा मंडल का प्रचार वह कर रहे थे उसमें भी भ्रष्टाचार का उजागर हो चुका है। उन्होंने कहा कि स्टिंग मास्टर मनीष सिंसोदिया की करतूतों पर जब स्टिंग हो गया है तो वे अब पत्रकारों के सवाल से बचकर

भाग रहे हैं, लेकिन उनके भागने से कुछ नहीं होगा। जब तक वह इस भ्रष्टाचार को कबूल नहीं करते तब तक उनसे ऐसे ही सवाल भाजपा और दिल्ली की जनता पूछती रहेगी।

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि नई आबकारी नीति में शराब माफियाओं की मिली भगत अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है और कमीशन 2 फीसदी से

## कैलाश अस्पताल में तीमारदारों ने किया हंगामा, महिला की हालत बिगड़ी

नोएडा। नोएडा के सेक्टर-27 कैलाश अस्पताल में बुधवार की देर रात जमकर हंगामा हुआ। अस्पताल के डॉक्टरों पर दिल्ली की एक प्रसव पीड़ित महिला का दो बार गलत ऑपरेशन करने का आरोप है। जिसके चलते महिला और उसके नवजात शिशु को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा है। प्रसव पीड़ित महिला की हालत बिगड़ती देखकर परिवार के लोगों ने डॉक्टरों से सवाल किया। सूचना मिलने पर प्रसूति एवं महिला रोग विभाग की एचओडी डॉ.उमा शर्मा को व सांसद डाक्टर महेश शर्मा मौके पर पहुंचे।

कैलाश अस्पताल में भर्ती महिला का नाम आकांक्षी गुप्ता है। उसकी उम्र 24 साल है। आकांक्षी के भाई गौरव ने बताया कि 1 सितंबर को ऑपरेशन से सलीबरी हुई थी। फिर तबीयत बिगड़ने लगी।

अब 6 दिन बाद हमें बिना बताए इमरजेंसी में डॉक्टरों ने दोबारा ऑपरेशन कर दिया। फिलहाल बच्चा नार्मल है, लेकिन आकांक्षी को तबीयत बेहद नाजुक है।

गौरव ने बताया कि आकांक्षी का पति आशू गुप्ता केमिस्ट है। वह दिल्ली में केमिस्ट शॉप चलाते हैं। गौरव का

कहना है कि हम लोग कैलाश अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं। हमने अभी कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। जल्दी ही पुलिस को लिखित शिकायत देंगे। पीड़ित दिल्ली के अशोक नगर में रहते हैं।

हाथ जोड़कर बोले दोनों जिंदा है सही सलामत है...

हंगामा बढ़ता देख सांसद डाक्टर महेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से हाथ जोड़कर कहा कि बच्चा और बेटी दोनों जिंदा है और सही है। उनको यहां से पूरी तरह से ठीक करके वापस भेजा जाएगा। इस दौरान परिजनों के रोने-बिलखने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है।

हंगामा बढ़ता देख अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को फोन किया। परिजनों का आरोप है कि उन्हें कोई भी सही जवाब नहीं दे रहा था। उनको नहीं पता कि परिवार के दो सदस्यों की क्या स्थिति है। इसको लेकर हंगामा बढ़ता गया। परिजनों ने ये भी आरोप लगाया कि कमिशन बिना बताए ही दोबारा ऑपरेशन क्यों किया गया।

## आईएसए इरा सिंघल ने डीटीयू विद्यार्थियों को दिये सिविल सर्विस के गुरु



## विवेक राय/गौरवशाली भारत

नई दिल्ली। युवाओं द्वारा सिविल सर्विस परीक्षाओं की तैयारी और इसमें आने वाली चुनौतियों से रूबरू होने के लिए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिविल सर्विस-शंका एवं निदान नाम से गुरुवार, 8 सितंबर को आयोजित इस कार्यक्रम के तहत 2014 की आईएसए टॉपर सुश्री इरा सिंघल, आईएसए के

साथ विशेष बातचीत स्तर का आयोजन किया आया। इस दौरान सुश्री सिंघल ने विद्यार्थियों को सिविल सर्विस की तैयारियों को लेकर अनेकों गुर दिये। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने सुश्री सिंघल से सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में अनेकों सवाल पूछे। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता सुश्री इरा सिंघल ने सभी सवालों के जवाब बहुत ही विस्तार एवं उदाहरणों के साथ दिये और विद्यार्थियों की शंकाओं का

समाधान किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने उनके सर्विस कैरियर से संबंधित जानकारी भी ली। सुश्री सिंघल ने विद्यार्थियों को बताया कि उन्हें सिविल सर्विस के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी समझाया कि सिविल सर्विस में आने के बाद क्या-क्या चुनौतियां सामने आती हैं और उनसे कैसे निपटा जाता है।

गौरतलब है कि डीटीयू के अनेकों पूर्व विद्यार्थी आईएसए और आईपीएस



सहकारिता मंत्रियों को राष्ट्रीय कान्ग्रस को संबोधन करते हुये वित्त मंत्री ने कहा कि 50,362 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले पंजाब राज्य के लिए 20 ज़िला सहकारी केंद्रीय बैंकों के ढांचे उपयुक्त नहीं है और इस त्रिस्तरीय ढांचे को इस बैंक के पंजाब राज्य सहकारी बैंक के साथ विलय स्वरूप दो स्तरीय बनाए जाने से प्रभावकी सुधार और कुशलता में विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि इससे ज़िला सहकारी केंद्रीय बैंकों के पास मौजूद पूँजी को पूँजी और जोखिम संपत्ति अनुपात अनुसार और उचित रूप में इस्तेमाल करके राज्य के अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।

केंद्र सरकार को पंजाब सरकार के इस प्रस्ताव के लिए केंद्रीय रिजर्व बैंक को सहमत करने की अपील करते हुये एडवोकेट चीमा ने कहा कि इससे दोनों स्तरों पर स्टेच्यूटी लिक्विडिटी रेशो (एस.एल.आर) को बनाई रखने और इस भूगोलिक तौर पर छोटे राज्य के लिए अलग 21 सी. बी. एस लायसेंसों की जरूरत भी खत्म हो जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की तरफ से सभी नियमित जरूरतें पूरी करने के लिए प्रस्ताव पहले ही आ. बी. आई को सौंपा जा चुका है। पंजाब के वित्त मंत्री ने सहकारी बैंकों को 2प्रतिशत ब्याज सहायता बहाल करने का मुद्दा भी उठाया जोकि भारत

## नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

नोयडा। थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर ले जाने वाले अभियुक्त उमेश पुत्र रमेश निवासी ग्राम दहमी थाना सिविल लाइंस जिला बदायूं को थाना क्षेत्र के गंदा नाला बस स्टॉप के पास से गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि 31 अगस्त 2022 को वारिया निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना एक्सप्रेस-वे नोएडा द्वारा थाना एक्सप्रेस-वे पर सूचना दी गई कि उनकी 12 वर्षीय पुत्री घर से बिना बताये कहीं चली गई है। जिसके सम्बन्ध में थाना एक्सप्रेस-वे नोएडा पर मुकदमा अपराध संख्या 113/2022 धारा 363 भादवि के तहत पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह मजदूरी का काम करता है। उक्त लड़की वाजिदपुर में



स्कूल में पढ़ती थी जिसे वह करीब पिछले डेढ़ महीने से जानता है। इसीलिए 31 अगस्त 2022 को उक्त लड़की अपने घर से निकलकर सेक्टर-62 पहुंची। जहां से वह दोनों अभियुक्त के गाँव बदायूं पहुंचे जहां दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी एवं पति-पत्नी की तरह रह रहे थे। उक्त युवती अपने परिवार वालों से मिलने आई थी एवं अभियुक्त युवती को अपने साथ ले जाने के लिए आया था।

## ईडब्ल्यूएस एडमिशन : दिल्ली के निजी स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

## ईडब्ल्यूएस एडमिशन पर हाईकोर्ट के आदेश को किया रद्द

नई दिल्ली। दिल्ली के निजी स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें स्कूलों को अगले पांच सालों में चरणबद्ध तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की सीटों को भरने का निर्देश दिया गया था। एक सितंबर को जारी आदेश में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एसएस ओका की बेंच ने कहा, ५६म इस बात की सराहना करने में असमर्थ हैं कि 26 मई, 2022 के आक्षेपित आदेश के खंड 4 पर काम कैसे किया जा सकता है, भले ही स्कूल पहले की अवधि के लिए डिफॉल्ट रूप से उसी तरह काम कर रहे हों लेकिन अंतरिम आदेश द्वारा इस तरह से मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने एनजीओ जस्टिस फॉर ऑल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित

किया था, जिसमें निजी स्कूलों द्वारा बच्चों के निष्कूल और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (आरटीई) प्रावधानों को लागू करने की मांग की गई थी। 126 मई के हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया था, सामान्य श्रेणी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की वास्तविक संख्या की परवाह किए बिना, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों की 25 प्रतिशत सीटें प्रवेश स्तर (प्री-स्कूल/ नर्सरी/ एच प्री- प्राइमरी/ केजी और क्लास वन) पर घोषित स्वीकृत संख्या के आधार पर भरी जाएंगी। स्कूलों ने इस अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दावा किया गया था कि 2009 अधिनियम के प्रावधानों के तहत घोषित संख्या की कोई अवधारणा नहीं है और ऐसी व्यवस्था शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार द्वारा की गई है। जिससे निजी

गैर-सरकारी सहायता प्राप्त दिल्ली के स्कूलों को 2009 के अधिनियम के तहत निर्धारित 25 प्रतिशत से ज्यादा ईडब्ल्यूएस एडमिशन लेने के लिए मजबूर होना पड़े। स्कूलों ने आगे दावा किया कि 'बैकलॉग सीटें' भरने का आदेश वास्तव में मौजूद ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट से पहले मुकदमे पर फैसला करने को कहा। कोर्ट ने कहा, जिस मुद्दे की अदालत ने जांच की है, वह यह है कि क्या ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 25 फीसदी सीटें घोषित स्वीकृत संख्या या वास्तविक प्रवेश के आधार पर भरी जा रही हैं और हम मानते हैं कि यह एक अंतरिम आदेश का विषय नहीं बन सकता है। इस प्रकार हमारा विचार है कि मुख्य मामले में अंतिम निर्णय लेना होगा और यह दी गई अंतरिम राहत की प्रकृति का विषय नहीं हो सकता है।







## शार्ट न्यूज

### लखीमपुर के अस्पताल में दवा लेने गए भाजपा नेता का सिर फोड़ा, होमगार्ड की वर्दी फाड़ी

लखीमपुर-खीरी। यूपी के लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल में दवा लेने गए भाजपा नेता फिर ओपीडी में ड्यूटी कर रहे होमगार्डों के बीच विवाद हो गया। दोनों में जमकर हाथापाई और मारपीट हुई। इस मारपीट में होमगार्ड की वर्दी फट गई तो वहीं भाजपा नेता का सिर फूट गया। भाजपा नेता का आरोप है कि उन पर हमला किया गया है और यह हमला अस्पताल के अधिकारियों और डॉक्टरों के इशारे पर हुआ है। भाजपा मंडल के अध्यक्ष नीरज मिश्रा गुरुवार की दोपहर दवा लेने के लिए जिला अस्पताल मोतीपुर गए थे। बताया जाता है कि ओपीडी में घुसने को लेकर वहां ड्यूटी कर रहे होमगार्ड और भाजपा नेता के बीच बहस हो गई। बहस के बाद दोनों में धक्का-मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। इस मारपीट में होमगार्ड की वर्दी फट गई जबकि भाजपा नेता का सिर फूट गया। भाजपा नेता नीरज मिश्रा का कहना है होमगार्ड ने उनके सिर पर डंडा मार कर लहलुहान कर दिया। उनका आरोप है कि कुछ दिन पहले अस्पताल की गंदगी को लेकर उन्होंने सीएमएस को शिकायत की थी। उनके ऊपर हमला इसी ख़ुनस में किया गया है।

### कानपुर के परमट मंदिर में कार लेकर घुसा युवक, भीड़ ने पकड़कर पीटा

कानपुर। यूपी के कानपुर में एक कार सड़क से निकल कर सीधे मंदिर में घुस गया। कार मंदिर में घुसता देखकर वहां खड़े लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि इस बीच एक महिला बाल-बाल बच गई। तेज रफतार मंदिर में घुसी कार के बाद कुछ लोग जरूर घायल हुए हैं। मामला परमट मंदिर का है। यहां बुधवार देर रात एक कार सवार कार लेकर मंदिर परिसर तक पहुंच गया। हादसे में सब्जी की फेरी लगाए महिला बाल-बाल बच गई और कुछ लोग घायल हो गए। मंदिर परिसर में मौजूद आक्रोशित भीड़ ने हंगामा कर दिया। मौके पर मौजूद लगभग 25 से 30 लोगों ने कार सवार को पीट दिया। हर्लाकिक कार हवार समझौता करके वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस को मौके से दोनों ही पक्ष गायब मिले। ग्वालटोली थाना प्रभारी ने बताया की घटना की जानकारी पर पुलिस गई थी लेकिन दोनों ही पक्ष जा चुके थे तहरीर मिलती है तो कार्यवाही की जाएगी।

### लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर ग्रामीण ने दी जान, बेटे की बीमारी से था परेशान

**गोंडा**। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में रामगढ़ बगगांव निवासी जोखू पांडेय 45 पुत्र हनुमान ने अपने लाइसेंसी बंदूक से गुरुवार को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि एक वर्ष पहले बड़े बेटे को चुकी है। वही अब छोटे बेटे का भी स्वास्थ्य खराब है। एक बार ऑपरेशन हो चुका है किंतु डॉक्टर पुनः ऑपरेशन करने की बात कह रहे थे। जिससे वो बहुत परेशान थे। जोखू पांडेय चंदसुहा के पूर्व कोटेदार भी बताए जा रहे हैं। अभी हाल में ही इनका कोटा बर्खास्त हुआ है। एसओ मनोज पाठक ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच की जा रही है।

### मॉनिटर की बात नहीं मानी तो 5 दस्तों को बुलाया और फिर छात्र को लाठी-डंडे से पीटा

मथुरा। मथुरा के मांट में क्लास रूम में मॉनिटर की बात न मानना 9वॉ के छात्र को भारी पड़ गया। मॉनिटर ने कॉलेज की छुट्टी के बाद साथियों से आरोपी को लाठी डंडों से पिटवा दिया। मामला मांट कस्बा के एक इंटर कॉलेज का है। छात्र मोहित 9 वॉ कक्षा में पढ़ता है। आरोप है कि क्लास मॉनिटर की किसी बात को उसने अवहेलना कर दी थी। इसके बाद मॉनिटर गुस्सा में आ गया और छुट्टी के बाद मॉनिटर ने अपने साथी पांच छात्रों को बुलाकर गांव जाते मोहित को जावरा तिराहे पर रोक लिया और उस लाठी डंडों से तुरी भर पीटा। मोहित ने पड़ोसियों को सूचना दी। परिजनों के आने के बाद मोहित थाने पहुंचा और आपबीती सुनाई। पुलिस ने जांच की बात कही है। वहीं कालेज प्रबन्धक ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मोहित को पीटने वालों में एक दबंग किस्म का छात्र है।

### भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने किया केशव जौर का बचाव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी के सौ विधायक तोड़कर लाने की पेशकश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेन्द्र सिंह ने मौर्य का बचाव करते हुए कहा है कि अखिलेश को अपने परिवार, पार्टी और गठबंधन का ख्याल रखना चाहिये। सिंह ने गुरुवार को एस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के प्रमाणित एवं पार्टी की विचारधारा के लिए समर्थक माने जाते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में अखिलेश ने कहा था कि मौर्य अगर सौ विधायक लेकर आये तो सपा उन्हें समर्थन देकर मुख्यमंत्री बना देगी। पार्टी के प्रति मौर्य की निष्ठा को संदेह से परे बताते हुए सिंह ने कहा, वह (मौर्य) सदैव हमारे साथ रहेंगे। वह किसी स्वार्थ में पड़ने वाले नेता नहीं हैं। वह अखिलेश यादव को चलाएंगे, अखिलेश यादव उन्हें क्या चला पाएंगे ? इतना ही नहीं सिंह ने कहा कि तमाम सपा विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव अपने गठबंधन की, अपने परिवार की, अपनी पार्टी की, अपने विधायकों की भी चिंता कर लें, क्योंकि उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं। इस बीच सपा गठबंधन से अलग हुए सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की अखिलेश यादव की पेशकश पर सपा सुप्रीमो को एक बार फिर खरी-खोटी सुनाते हुए कहा कि जिस दल की चार बार सरकार बनने पर किसी गैर यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया उस दल की सरकार में मौर्य समाज के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जा सकता है।

### देवबंद में युवक की गोली मारकर हत्या

देवबंद (सहारनपुर)। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में पहरा दे रहे ग्रामीणों ने बुधवार देर रात मजदूरी करके लौट रहे लोगों पर गोली चला दी जिसमें एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के बाद एएसपी विपिन तांडा और एसपी देहात सूरज कुमार राय भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। मृतक के पिता सलीम की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के थाना छपार निवासी शाहरख (22) अपने पांच साथियों के साथ बीती देर रात डेढ-दो बजे के करीब देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव मिरगपुर से सरिया बांधकर लौट रहा था। जैसे ही वह क्षेत्र के गांव परेली पहुंचे तो वहां परहे दे रहे ग्रामीणों ने मजदूरों पर गोली चला दी। गोली लगने से शाहरख की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अन्य मजदूरों सलमान, दिलशाद, समीर, मोहम्मर, सलमान पुत्र कल्लू ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई।

### बुलंदशहर में चार वाहन चोर गिरफ्तार

बुलन्दशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने चाहन चोर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नौ मोटरसाइकिल और एक टेम्पो के अलावा हथियार एवं गोली बारूद बरामद किये हैं। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि बीती रात मुकबिबर को घुसना पर पुलिस ने अरविन्द,सोनू,महफूज और मोनु को मामन चुंगी के पास धर दबोचा और उनकी निशानदेही पर नौ मोटरसाइकिल और एक टेम्पो मामन रोड कब्रिस्तान की झाड़ियों से बरामद किया। इस दौरान उनका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह अपने फरार साथी के साथ वाहन चोरी कर छिपाकर रखते हैं तथा बाद में समय मिलने पर उनके अलग-2 पार्स खोलकर सस्ते दामों में बेच देते हैं।

## गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण व सम्मान समारोह का आयोजन हुआ

गाजीपुर। गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद कुमार पांडे,वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अभिषेक सिंह,कनिष्ठ उपाध्यक्ष शिवेश कुमार पांडे,महामंत्री देवव्रत विश्वकर्मा कोषाध्यक्ष इंद्रासन यादव,पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण और चुनाव अधिकारियों का सम्मान समारोह आज जिला पंचायत सभागार में संघर्ष हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह व विशिष्ट अतिथि रोहन पी बोत्रे व अपर पुलिस अधीक्षक नगर गोपी नाथ सोनी व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीणअभिषेक भारती एंवम मंचासीम अतिथियों के द्वारा मॉ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवम



दीप प्रज्वलित कर किया गया।ततपश्चात जिलाधिकारी के द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई जिलाधिकारी द्वारा चुनाव अधिकारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया इस मौके पर जिलाधिकारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन और पत्रकारों का चोली दामन का संबंध होता है उन्होंने कहा

## रामभक्त और जिन्ना भक्त का तालमेल नामुमकिन : मौर्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा के सौ विधायक तोड़कर लाने के एवज में सूचे का मुख्यमंत्री बनाने के लिये समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा समर्थन देने की पेशकश को यह कहते हुए ठुकरा दिया है कि एक रामभक्त और जिन्नाभक्त के बीच तालमेल संभव ही नहीं है। खुला सुप्रीमो के ऑफर पर मौर्य ने कहा, अखिलेश मुझसे घृणा करते हैं। मेरे प्रति अखिलेश का प्यार विधान सभामें सबने देखा है। अखिलेश खुद कहा कि अगर वह 100 विधायक हमारे साथ लेकर आये तो उन्हें सपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बना दिया जायेगा। इसके जवाब में मौर्य ने

गुरुवार को सपा पर हमला बोलते हुए कहा उनकी खुद की पार्टी (सपा) टूटी पड़ी है, उनका परिवार उनसे नाराज है। इस सबसे बढ़कर जो जिन्ना के भक्त हैं, वो राम भक्त के साथ कैसे बात कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि 2024 में सपा का खाता भी खुलेगा।

सपा सुप्रीमो के ऑफर पर मौर्य ने कहा, अखिलेश मुझसे घृणा करते हैं। मेरे प्रति अखिलेश का प्यार विधान सभामें सबने देखा है। अखिलेश खुद कहा कि अगर वह 100 विधायक हमारे साथ लेकर आये तो उन्हें सपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बना दिया जायेगा। इसके जवाब में मौर्य ने समाजवादी पार्टी हो गई है।

## 251 दिनों बाद जेल से रिहा हुआ इत्र कारोबारी पीयूष जैन, 198 करोड़ नकद मिला था घर से

**कानपुर**। 198 करोड़ और सोना बरामदगी के मामले में जेल में बंद इत्र कारोबारी पीयूष जैन और उनकी टीम मौजूद रही। दोपहर 1.08 बजे पीयूष जैन जेल में 251 दिन बिताए। जेल से निकलने के बाद पीयूष जैन ने एक शब्द नहीं कहा और गाड़ी में बैठकर चले गए।

पीयूष जैन को लेने के लिए एडवोकेट अंबर भरतिया हाईकोर्ट के एडवोकेट अनुराग खन्ना और उनकी टीम मौजूद रही। दोपहर 1.08 बजे पीयूष जैन जेल से निकला। उससे तमाम तरह के सवाल करने का प्रयास किया गया मगर उसने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो एक गाड़ी में बैठा और निकल गया एडवोकेट अंबर भरतिया ने कहा कि कारोबारी को रिहा करने के लिए जमानत मिली ये हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट है।

आपको बता दें कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन को बीती एक सितंबर को हाईकोर्ट से 196 करोड़ रुपये बरामदगी मामले में जमानत मिली थी। इस मामले में उसकी पत्नी कल्पना जैन और बेटा प्रियाश जैन ने दस-दस लाख रुपये की एफडी (फिक्स्टड डिपॉजिट) बंधपत्र के रूप में दाखिल की थी। एफडी का सत्यापन होने के बाद बुधवार की शाम पीयूष को जेल से छोड़ने का परवाना जेल भेजा गया था।

## देवरिया के प्रभारी सीएमओ ने खुद के हस्ताक्षर से ले लिया नया पदभार

**एजेंसी**

देवरिया। उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ सुरेंद्र सिंह ने नये सीएमओ को चार्ज देने से पहले ही खुद के हस्ताक्षर से, खुद को नोडल अधिकारी बनाकर एक अजब गजब कारनामे को अंजाम दिया है। इस सम्बंध में नवागत सीएमओ डॉ राजेश

## बसपा प्रमुख का ट्वीट देख स्वाती सिंह का छलका दर्द, बताया किसान व महिला विरोधी

**संवाददाता/गौरवशाली भारत**

लखनऊ। जो हमेशा से महिला व किसानों का विरोधी रहा हो, वह आज ट्विटर-ट्विटर खेल रहा है। क्या मायावती इस बात को भूल गयीं, जब गुंडों को उन्होंने हमारे आवास पर भेजा था। उनके भेजे हुए गुंडों हमारी बच्ची और हमारे साथ हर स्तर पर अश्रद्धा के लिए उतारू थे।वे किसानों का दर्द क्या समझ सकती हैं, जो कभी एसी रूम से निकली हैं नहीं। यह बातें प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री स्वाती सिंह ने कही। स्वाती सिंह ने बसपा प्रमुख



**जानें पूरा मामला**

इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर 23 दिसंबर 2021 की रात अहमदाबाद की डीडीजीआई टीम ने छापा मारा था। जहां से कई दिनों को छानबीन के बाद 197 करोड़ की नकदी बरामद हुई थी। पीयूष के कारोबारी इत्र को 23 किग्रा सोना भी बरामद हुआ था। उसके बाद 27 दिसंबर को डीडीजीआई ने पीयूष को जेल भेज दिया था। जेल जाने के बाद लखनऊ की डीआरआई ने पीयूष के कन्नौज वाले घर से बरामद 23 किग्रा सोने को विदेशी बताकर एफआईआर दर्ज की थी। तब से पीयूष कानपुर जेल में बंद था।

**योगी ने अखिलेश पर कसा था तंज**

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पहले विकास योजनाओं का पैसा चंद लोग हड़प जाते थे। यही पैसा अब दीवारों से निकल रहा है। कल 251 करोड़ और कई किलो सोना और चांदी निकला, आज भी लगभग

कि आज की पत्रकारिता हाई प्रोफाइल पत्रकारिता हो गई है जो जानकारिया अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से नहीं मिल पाती है उस कमियों को पत्रकारों के माध्यम से जानकारी होने के बाद उस पर कार्रवाई कर समस्या का समाधान किया जाता है ऐसे में पत्रकारों से उम्मीद करूंगा कि छोटी-बड़ी सभी समस्याओं को इसी तरह उजागर करके मेरे संज्ञान में लाते

## गोरखपुर रेलवे स्टेशन से युवती को अगवा कर गैंगरेप, विरोध पर पीटा, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती

**गोरखपुर**। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आउटर पर सो रही युवती को अगवा कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती को तीन लड़कों ने पहले अगवा किया फिर झाड़ी में ले जाकर रेप किया। शोर मचाने पर पीटरकर थायल भी कर दिया। लड़को को चंगुल से छूटने के बाद लहलुहान स्थिति में युवती जीआरपी थाने पहुंची। सूचना मिलते ही एसपी रेलवे, एसपी सिटी थाने पहुंच गए। महरजगंज जिले की रहने वाली पीड़िता को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार महाराजगंज जिले की रहने वाली 25 वर्षीय युवती



का पति से विवाद होने पर वह एक सप्ताह पहले घर छोड़कर गोरखपुर आ गई। रहने का कोई ठिकाना न होने पर स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक के आउटर और धर्मशाला बाजार पुल के बीच गुजारा कर रही थी। बुधवार की रात में 11 बजे युवती के पास तीन

लड़के पहुंचे और अकेला पाकर छेड़छाड़ शुरु कर दिया। विरोध करने पर अगवा कर धर्मशाला बाजार सब्जी मंडी के रेलवे लाइन किनारे झाड़ी में ले जाकर बारी- बारी से रेप किया। शोर मचाने पर पीटने के साथ ही यातना दी। आरोपितों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता किसी तरह जीआरपी थाना पहुंची। घटना की जानकारी होने पर एसपी रेलवे डॉ. अवधेश सिंह थाने पहुंचे। पीड़िता से घटना की जानकारी लेने के बाद टीम को घटनास्थल पर भेजा। युवती के साथ दरिंदगी की खबर मिलने पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई भी थाने पहुंचे। महिला

थाना प्रभारी को बुलाकर एम्बुलेंस से युवती को मेडिकल कालेज भेजा गया। सीसी कैमरा फुटेज और सर्विलांस की मदद से जीआरपी और जिले की पुलिस आरोपितों के बारे में छानबीन कर रही है। पीड़िता के बताए गए हलिया के आधार पर आसपास के लोगों से भी पूछा जा रहा है। जीआरपी एसपी अवधेश सिंह ने बताया कि बयान दर्ज करने के बाद युवती को मेडिकल कॉलेज में भर्ती लेने का गया है। आरोपितों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज करेगे।

## हरदोई में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास

हरदोई। उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले के सांडी क्षेत्र में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश का मामला सामने आया है जब कुछ अराजक तत्वों ने एक मस्जिद के गेट पर गेरूआ रंग के पेंट से जय श्री राम लिख दिया।

पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि मोहल्ला नवाबगंज के निकट बिलग्राम चुंगी पर मस्जिद पर आज सुबह हज लोग नमाज अदा करने पहुंचे तो गेट और दीवार पर गेरूआ पेंट से जय श्री राम लिखा देख कर चकित रह गये।

सूचना के बाद तमाम कस्बे के



मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।

सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत की और अराजक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही

## संकल्पों को सिद्धि में बदल रहा है भारत : योगी

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, वह देश अपना नामाज अदा करने 75 वर्षों में उसी ब्रिटेन को पछाड़कर आज विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वॉ तथा राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवेधनाथ की 8वॉ पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव संकल्पना से सिद्धि तक विषयक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह इस बात का जीवंत उदाहरण है कि भारत अपने संकल्पों को सिद्धि में



बदल रहा है। उन्होंने कहा कि यह भारत के वर्तमान नेतृत्व की सफलता का भी उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में पहली बार लगा कि स्वाधीनता दिवस का पर्व सिर्फ सरकारी आयोजन नहीं है बल्कि भारतवासियों ने हर घर तिरंगा फहराया। इसमें सम्पूर्ण देश की सहभागिता रही। मुख्यमंत्री ने कहा हमारे देश को आजादी अचानक नहीं मिली इसके लिए अहर्निश प्रयास करना पड़े, अनगिनत बलिदान देने

## यूपी में लंपी वायरस की घेराबंदी का मास्टर प्लान तैयार

लखनऊ। राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेजी से पांव पसार रहे लंपी वायरस की ‘लंबी घेराबंदी’ की तैयारियां शुरू हो गयीं हैं।

योगी सरकार ने पीलीभीत से इटावा तक लगभग तीन सौ किलोमीटर लंबी इन्फ्यू बेल्ट के जरिए लंपी वायरस को घेरने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। पांच जिलों के 23 ब्लॉक से होकर गुजरने वाली इन्फ्यू बेल्ट 10 किलोमीटर चौड़ी होगी। पशुपालन विभाग की ओर से इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गयीं हैं। पशुपालन विभाग की ओर से इन्फ्यू बेल्ट के अंतर्गत निगरानी के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। टास्क फोर्स लंपी वायरस से संक्रमित पशुओं की ट्रेकिंग और ट्रीटमेंट का जिम्मा संभालेगी। संक्रमित पशुओं की कड़ी निगरानी रखने के साथ ही इन्हें इन्फ्यू बेल्ट के भीतर ही रोकने की व्यवस्था होगी। पशुओं के संक्रमण को रोकने के लिए ऐसा प्रयास इससे पहले 2020 में मलेशिया में किया जा चुका है, जिसके परिणाम काफी सकारात्मक आये थे।

एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद पांडे द्वारा समस्त आंगतुकों का आभार व्यक्त व्यक्त किया गया इस मौके पर श्री अनिल उपाध्याय शिवकुमार कुशवाहा दूर विजय सिंह आशुतोष त्रिपाठी रविंद्र श्रीवास्तव मोहन तिवारी सुधीर प्रधान संजय सिंह सुमन सिंह सकरवार प्रमोद यादव प्रभाकर सिंह कमलेश यादव बबलू राय अभिषेक सिंह भोलू,विक्की अजय सिंह राजू मुमाजाज अहमद विनोद गुप्ता वेदु शर्मा मनजीत चौंसिया विवेक कुमार चौरशिया अवधेश यादव शोकांत खान राधेश्याम पांडे आदि उपस्थित रहे कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक कुमार श्रीवास्तव संरक्षक एवं सफल संचालन डॉ एके राय ने किया।



## शार्ट न्यूज

### भारत ने चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया, निर्णय शुक्रवार से प्रभावी

नयी दिल्ली। सरकार ने भारत ने चावल के निर्यात पर 09 सितंबर से 20 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्क लगाने की घोषणा की है। चावल उद्योग के आंतरिक सूत्रों का दावा है कि इस बार खरीफ की फसल में धान का उत्पादन अनुमान से कम होने के आसार के बीच यह निर्णय लिया गया है। सूत्रों के अनुसार विश्व में खाद्य कीमतों में तेजी के बीच सरकार चावल जैसे रोजमर्रा के उत्पादों की घरेलू कीमतों को लेकर संवेदनशील है। चावल पर निर्यात शुल्क लगाए जाने संबंधी गुरुवार को जौहरी सीमा शुल्क विभाग की अधिसूचना में कहा गया है, यह अधिसूचना 09 सितंबर, 2022 से लागू होगी। अधिसूचना के अनुसार, बिना दला चावल ( धान ), भूरा चावल और आधा दले या पूरा दले धान ( चावल ) पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। यह निर्णय पॉलिश किए हुए या रैन्डेड (बासमती और उसका चावल को छोड़कर) सभी तरह के चावल पर लागू होगा। देश में खाद्य कीमतों की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार द्वारा गेहूँ के आटे के निर्यात को प्रतिबंधित करने के बाद चावल के संबंध में यह कदम उठाया गया है। सरकार ने पहले गेहूँ के निर्यात पर रोक लगा दी थी क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य संघर्ष के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रमुख खाद्यान्न की कीमतें बढ़ने लगी थीं। कृषि क्षेत्र के एक विशेषज्ञ ने कहा कि इस सीजन में धान का उत्पादन उम्मीद से कम हो सकता है। इससे कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार का फैसला एहतियाती है।

### दक्षिण पूर्व रेलवे ने अप्रैल-अगस्त में 27 प्रतिशत अधिक कोयला बोया

कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे (एसईआर) ने चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों ( अप्रैल-अगस्त, 2022-23 ) के दौरान में कोयला लदान में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में करीब 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एसईआर ने आधिकारिक आंकड़ों के बारे में यह जानकारी दी। एसईआर ने बताया कि अप्रैल-अगस्त, 2022-23 दौरान कुल माल ढुलाई से अर्जित होने वाली आय बढ़कर 7039.60 करोड़ रुपये हो गई है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 6646.93 करोड़ रुपए की तुलना में 5.91 प्रतिशत अधिक है। एसईआर ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में कुल 8.18 करोड़ टन माल ढुलाई की है। जिसमें से इस अवधि में 2.11 करोड़ टन कोयले की ढुलाई की है। बयान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में कोयला ढुलाई पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 26.65 प्रतिशत अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में उसकी माल ढुलाई में कोयला, लौह अयस्क, कच्चा लोहा और तैयार स्टील, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद जैसी वस्तुओं का मुख्य योगदान है।

### रुपये में 26 पैसे की तेजी

मुंबई। शेयर बाजार की एक प्रतिशत से अधिक की तेजी के बीच आयातकों और बैंकरों की बिकवाली से आज अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया 26 पैसे चढ़कर 79.69 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया। वहीं, पिछले कारोबारी दिवस रुपया 13 पैसे लुढ़ककर 79.95 रुपये प्रति डॉलर रहा था। शुरुआती कारोबार में रुपया 23 पैसे की तेजी लेकर 79.72 रुपये प्रति डॉलर पर खुला और बिकवाली की बदौलत 79.65 रुपये प्रति डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि लिवाली के दबाव में 79.83 रुपये प्रति डॉलर के निचले स्तर तक लुढ़क गया। अंत में पिछले दिवस के 79.95 रुपये प्रति डॉलर की तुलना में 26 पैसे मजबूत होकर 79.69 रुपये प्रति डॉलर हो गया।

### सोना 243 रुपये फिसली, चांदी में तेजी

मुंबई। वैश्विक रुपय की गिरावट के दबाव में आज घरेलू सराफा बाजार में सोना 243 रुपये प्रति दस ग्राम गिर गया वहीं चांदी रहने से चांदी में 55 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी रही। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना हाजिर 0.61 प्रतिशत गिरकर 1707.30 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। इसी तरह अमेरिका सोना वायदा 0.15 प्रतिशत फिसलकर 1712.80 डॉलर प्रति रह गया। इस दौरान चांदी हाजिर 0.65 प्रतिशत की तेजी के साथ 18.17 डॉलर प्रति औंस बोली गई। इस दौरान देश के सबसे बड़े वायदा बाजार एमसीएक्स में सोना 243 रुपये उतरकर 50263 रुपये प्रति दस ग्राम और सोना मिनी 210 रुपये गिरकर 50360 रुपये प्रति दस ग्राम पर रही। इसी तरह चांदी 55 रुपये की मामूली बढ़त लेकर 54080 रुपये प्रति किलोग्राम और चांदी मिनी 107 रुपये चढ़कर 54700 रुपये प्रति किलोग्राम बोली गई।

### ब्रिटेन उत्तरी सागर में तेल गैस 100 लाइसेंस जारी करेगा : ट्रस

लंदन। ब्रिटेन की नयी प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने कहा है कि ब्रिटेन यूरोप में भू-राजनैतिक तनाव के बीच देश में उत्पन्न ऊर्जा संकट से उबरने के लिए उत्तरी सागर क्षेत्र में तेल और गैस उत्पादन के लिए 100 से अधिक लाइसेंस जारी करेगा। यू.श्री ट्रस ने संसद की एक बैठक में कहा, ब्रिटेन उत्तरी सागर के तेल और गैस उत्पादन सहित घरेलू ऊर्जा के सभी स्रोतों के प्रयोग में तेजी ला रहे हैं। हम एक नया लाइसेंसिंग दौर शुरू करेंगे, जिससे 100 से अधिक नए लाइसेंस दिए जाने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि वह ब्रिटेन में हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग द्वारा गैस उत्पादन पर प्रतिबंध को हटा देंगी, क्योंकि पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इसकी आलोचना की है। बोरिस जानसन सरकार में विदेश मंत्री रह चुकीं सुश्री ट्रस को पिछले सोमवार को सतारूह कंजरवेटिव पार्टी का नेता चुना गया था और मंगलवार को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें नए प्रधान मंत्री के रूप में सरकार बनाने का निर्देश दिया।

### आईआईएम अहमदाबाद और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बीच साझेदारी


नयी दिल्ली। भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद ( आईआईएमए ) ने जापान की सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के साथ अनुसंधान, परामर्श और छात्र परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए एक साझेदारी की है। कंपनी ने आज यह जारी बयान में कहा कि आईआईएमए के निदेशक प्रोफेसर एरोल डिम्बुजा और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी किजी सैतो ने इस संबंध में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी एक शोध परियोजना के साथ शुरू होगी, जो सुजुकी की भारत और विश्व स्तर पर उनकी भावी व्यावसायिक विविधीकरण रणनीति पर सलाह देगी। साझेदारी अनुबंध का हस्ताक्षर करते हुए प्रो डिम्बुजा ने कहा हमारे फैकल्टी ने रणनीति, गतिशीलता और परिवहन क्षेत्रों में अनुसंधान का एक समृद्ध भंडार बनाया है और यह सहयोग हमारे लिए प्रेरित्व की दुनिया में योगदान करने के लिए और अवसर पैदा करेगा। सुजुकी की भारत में सफल यात्रा रही है और पिछले कई दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका काफी प्रभाव पड़ा है। यह साझेदारी हमारे छात्रों के लिए परियोजनाओं पर सुजुकी टीमें के साथ काम करने और यह समझने के लिए भी रास्ता खोलेंगी कि भारतीय बाजार में उनका टिकाऊ प्रभाव कैसे पड़ा है।

### जेके टायर भारत के सबसे ऊँचे मोटरेबल क्षेत्र में पहुंचा

नयी दिल्ली। टायर बनाने वाली कंपनी जेके टायर एण्ड इंस्ट्रीज़ लिमिटेड लेह में अपने पहले जेके टायर स्टील व्हीलस सेंटर का उद्घाटन कर देश के सबसे ऊँचे मोटरेबल क्षेत्र में पहुंच गयी है। कंपनी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि उपभोक्ताओं को खरोददारी का बेजोड़ अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया, कंपनी का यह नया प्रमुख वन-स्टॉप सोल्युशन सेंटर- लदाख टायर्स एण्ड एक्सेसरीज़ स्टील व्हील- क्षेत्र का पहला सेंटर है। आधुनिक व्हील सर्विसिंग उपकरणों, टायरों की सम्पूर्ण रेंज, एक एक्सपीरिएंस ज़ोन और विशेषज्ञ टेकनिकल सलाह के साथ यह नया उत्पादोत्त जेके टायर के एक्सक्यूज़िव स्टोर्स के लिए इसकी रीटेल पहचान को दर्शाता है। लेह के प्रमुख स्थल पर 2000 वर्गफीट में फैला यह सेंटर उपभोक्ताओं को टायरों, एलॉयज़ और एक्सेसरीज़ की खरीददारी का सम्पूर्ण अनुभव प्रदान करेगा। सेंटर में डिस्ट्रेंस और इन्फोर्मेशन कियोस्क भी है जो उपभोक्ताओं को अपने लिए उचित प्रोडक्ट के चुनाव में मदद करेंगे।

## भारत-प्रशांत आर्थिक मंच की बैठक में शामिल होंगे गोयल

**एजेसी**  
नयी दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत-प्रशांत आर्थिक फोरम (आईपीईएफ) भारत-प्रशांत क्षेत्र को व्यापार के लिए सुरक्षित और खुला रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करेगा। श्री गोयल शुक्रवार को लास एंजिल्स में आईपीईएफ की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेंगे। गोयल ने कहा है कि आईपीईएफ विशेष रूप से, चुनौतियों और कठिन समय के दौरान व्यापार को सुगम बनाने तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को खुली रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उनके पास उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्रालय का भी प्रभार है। वह आईपीईएफ और कुछ अन्य बैठकों के सिलसिले में इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं।



वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक अमेरिका में सान फ्रांसिस्को में अपने अपने पहले चरण के कार्यक्रमों को सम्पन्न कर के श्री गोयल भारत-प्रशांत आर्थिक फोरम (आईपीईएफ), अमेरिका- भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम (यूएसआईएसपीएफ) बैठक तथा अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आज लास एंजिल्स पहुंच रहे हैं। इससे पहले श्री गोयल ने अपनी यात्रा के प्रथम चरण के कार्यक्रमों के तहत 'भारतवर्षियों' के साथ एक बैठक में भाग लिया। विज्ञप्ति के अनुसार आईपीईएफ की बैठक से पूर्व मॉडिया के साथ परस्पर बातचीत करते हुए श्री गोयल ने कहा, ' आईपीईएफ में चर्चा सदस्य देशों के साथ एक-दूसरे की साझेदारी में काम करने के अवसरों को खोलने पर केंद्रित रहेगी जिससे कि यह

भारत में, दोनों प्रकार के निवेशों में तेजी आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में भाग लेने वाले सभी देशों के पास व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के मामले में एक-दूसरे को प्रस्तुत करने के लिए बहुत कुछ है और हम सभी मोर्चा पर मिल कर काम करेंगे। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच बहुत अच्छे और मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और कई भारतीय कंपनियों अमेरिका में अपने क्षेत्र की कंपनियों के लिए बहुत काम करती हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका से भारत में काफी निवेश हो रहा है। गोयल ने सान फ्रांसिस्को में अपने कार्यक्रमों के दौरान भारतीय कंपनियों के साथ और अधिक सहयोग बढ़ाने के लिए 'सेमीकंडक्टर क्षेत्र की शीर्ष

विनिर्माता कंपनियों और प्रयोगशालाओं के साथ भी परस्पर बातचीत की। उन्होंने लैम रिसर्च के सीईओ श्री टिम आर्चर के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट किया "युवा और कुशल कार्यबल के हमारे पूल के आधार पर हमने चर्चा की कि किस प्रकार लैम रिसर्च का सहयोग हमें भारत में सेमीकंडक्टर नवोन्मेषण में अग्रणी स्थिति प्राप्त करने में मदद कर सकता है।" इसके बाद, श्री गोयल ने मेडैन टेक्नोलॉजी सेंटर का दौरा किया और ऐंलायड मेटैरियल्स के अध्यक्ष और सीईओ श्री गैरी डिकर्सन से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट किया "हमने इस पर विचार किया कि किस प्रकार विश्व की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां भारत के सेमीकंडक्टर एवं सोलर विनिर्माण परितंत्रों को और अधिक सुदृढ़ बना सकती हैं।"

## गडकरी ने गुणात्मक सुधारों के लिए सभी के सहयोग पर जोर दिया

**एजेसी**  
नयी दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुणात्मक सुधारों के लिए सभी हितधारकों के बीच सहयोग पर जोर दिया है। गडकरी ने परिवहन क्षेत्र में भविष्य केकार्यसंबंधी नए विचारों के लेकर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन-आइडिया टू एक्शन% का उद्घाटन करते हुए, उन्होंने गुरुवार को कहा, हमें मतभेदों को दूर करना चाहिए और हमारी सोच भी अलग-अलग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों को एक-दूसरे के मुद्दों को समझना चाहिए और आपसी सहमति से निर्णय लेनी चाहिए। योजना बनाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे देश के वाहनों को चलाने के लिए भारत में बने ईंधन का ही इस्तेमाल हो। मंत्री ने भारत को अग्रणी विकसित देश बनाने के लिए नई वस्तुओं के निर्माण के लिए गुणात्मक योगदान और दूरदृष्टि पर जोर दिया। गडकरी ने भारत को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के



लिए बहु-मॉडल परिवहन के साथ एक एकीकृत दृष्टिकोण का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत यात्री यातायात और 70 प्रतिशत माल यातायात सड़कों का उपयोग करता है। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिसमें जलमार्ग, कराती हैं, तो सड़क परिवहन मंत्रालय इन लॉजिस्टिक्स पार्कों के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि निर्माण लागत को कम करना होगा जबकि निर्माण की गुणवत्ता में काफी सुधार करना

होगा। श्री गडकरी ने कहा कि भारत में कारोबार की लागतों में लाजिस्टिक्स पर खर्च को औसतन 16 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यक है। चीन में यह अनुपात 10 प्रतिशत और यूरोप में 12 प्रतिशत पर है।

गडकरी ने कहा कि मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ, एक %ट्टी बैंक% परियोजना लेकर आया है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( एनएचआई ) राजमार्गों के किनारे पेड़ लगाएगा, इस प्रकार हरित पर्यावरण को बचाए रखने में मदद मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप, हरित कवरेज में भारत को रैंकिंग पहले ही ऊपर जा चुकी है। रण्यों और केंद्र के बीच सहयोग का आह्वान करते हुए, उन्होंने कहा कि

## आरईआई एक्सपो 28 सितंबर से ग्रेटर नोएडा में

**एजेसी**  
नयी दिल्ली। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े एक्सपो के 15वें संस्करण 'रिन्यूबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2022' 28 से 30 सितंबर तक इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। इसके आयोजक इंफोर्मा मार्केट्स इन इंडिया ने आज यहां घोषणा करते हुये कहा कि भारत में अक्षय ऊर्जा उद्योग की बाजार क्षमता को गति प्रदान करने के लिए यह एक्सपो एक मंच के तौर पर बनकर उभरा है। कंपनी के प्रबंध निदेशक योगेश मुद्रा ने कहा कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव लाने वाले और पावरहाउस समारोह के रूप में गिने जाने वाले, आरईआई एक्सपो को इंडियन बायो गैस एसोसिएशन (आईबीए), ब्लूमवर्ग न्यू एनर्जी फाउंडेशन (बीएनईएफ), नेशनल हाईवे ऑफ इलेक्ट्रिक वेहिकल ( एनएचईवी ), वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ( डब्ल्यूबीसीएसडी ), काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर ( सीईईडब्ल्यू ), ब्रिज टू इंडिया

## एचडीएफसी बैंक का इंस्टीट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ के साथ समझौता

नयी दिल्ली। एचडीएफसी बैंक ने स्वतंत्र शोध करने के लिए एक चेयर को पूंजी प्रदान करने के वास्ते इंस्टीट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ ( आईईजी ) के साथ एक समझौता किया है बैंक ने आज यहां जारी एक बयान में यह जानकारी देते हुये कहा कि यह चेयर नई दिल्ली के आईईजी कैंपस में स्थित होगी और इसे ' एचडीएफसी बैंक चेयर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनंस ' के नाम से जाना जाएगा। इस चेयर के लिए एचडीएफसी बैंक पाँच सालों से ज्यादा समय तक आईईजी का सहयोग करेगा और 1 सितंबर, 2022 से लागू इस अवधि में 6.75 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देगा। एचडीएफसी बैंक

## प्रोत्साहित करता है। "एचडीएफसी बैंक चेयर" बैंकिंग और फाइनंस के महत्वपूर्ण एवं विकसित होते पक्षों का अनुसंधान करेगा और अपने अध्ययन एवं ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए समय-समय पर सेमिनार का आयोजन करेगा। इससे बैंकिंग एवं फाइनंशियल सर्विसेज़ उद्योग और रीगुलेटर्स को लाभ मिलेगा और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में ज्ञान का एक निकाय भी बनेगा। इसके द्वारा अध्ययन में लिए जाने वाले कुछ क्षेत्र कृषि एवं एमएएसएमई सेक्टर में रीगुलेशन, फाइनंसिंग, पूंजी बाजारों में इन्वोवेशन और वित्तीय सेवाओं में डिजिटल परिवर्तन व वित्तीय समावेशन के आर्थिक वाहक हैं।



और इंस्टीट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ के बीच इस करार पर हस्ताक्षर किये गये। इस मौके पर बैंक के अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती, नीति आयोग के सदस्य एवं आईईजी के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद के साथ ही बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।


आईईजी सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के रूप में प्रतिष्ठित है और आर्थिक एवं सामाजिक विकास के क्षेत्रों में भारत के अग्रणी थिंकटैंक्स में से एक है। आईईजी दीर्घकालिक शोध में विशेषज्ञ है, जो फैकल्टी को अपने क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता का विकास करने के लिए

## लक्षद्वीप के लिए एलपीजी सिलेंडर वाहक पोत का शुभारंभ

पणजी। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ( जीएसएल ) ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए स्वदेशी एलपीजी सिलेंडर वाहक पोत का शुभारंभ किया। जीएसएल के एक बयान में कहा गया है कि यह पोत लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों तक 2000 एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने के लिए विकसित और विनिर्मित किया गया है तथा आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत मशीनरी और नियंत्रण प्रणालियों से लैस है। इस पोत की लंबाई 55 मीटर है जिसमें 10 मीटर की बीम है और यह तीन डीजी सेट और दो 700 हासपावर इंजन से लैस है। जीएसएल के सीएमडी ब्रजेश कुमार उपाध्याय ने कहा, जहां तक गैर-रक्षा क्षेत्र में उत्पाद विविधीकरण का संबंध है, एलपीजी सिलेंडर वाहक पोत का शुभारंभ जीएसएल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उपाध्याय ने कहा, पिछले दो वर्षों में कोविड19 महामारी के कारण आने वाली चुनौतियों के बावजूद, यह संतोषजनक है कि हम अगले कुछ दिनों के भीतर सहमत समय सीमा के भीतर इस जहाज को वितरित करने में सक्षम होंगे।

## विश्व दुग्ध सम्मेलन में जुटेंगे 300 विदेशी प्रतिनिधि

**एजेसी**  
नयी दिल्ली। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन द्वारा दुग्ध उद्योग पर ग्रेटर नोएडा में 12 सितम्बर से होने वाले चार दिवसीय विश्व डेयरी सम्मेलन-2022 में दुग्ध उत्पादन से जुड़ी दुनिया भर की अत्याधुनिक तकनीकों से अवगत होने के साथ-साथ भारत से दुग्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के अवसरों का पता लगाने का मौका मिलेगा। केंद्रीय मत्स्य, पशुधन और डेयरी मंत्री प्रशांतदाताओं को बताया कि इस सम्मेलन में 50 देशों के 300 विदेशी प्रतिनिधियों सहित 1500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें किसान, दुग्ध सहकारी समितियों के प्रतिनिधि और डेयरी उद्योग से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञ भी भाग लेंगे। विदेशी प्रतिनिधियों में करीब 50 किसान होंगे। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सम्मेलन के कई केंद्रीय मंत्रियों और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। रूपाला ने कहा कि भारत दुनिया का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। दुनिया के दुग्ध उत्पाद में 23 प्रतिशत योगदान भारत का है, लेकिन



इसके निर्यात में देश का हिस्सा मात्र एक प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि किसानों और उद्योग के हित में देश से दूध का निर्यात बढ़ाने की महती आवश्यकता है और इस सम्मेलन में इस पर खास ध्यान दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में दूध उत्पादक किसानों और डेयरी उद्योग से जुड़े लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो, इस पर विशेष जोर होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मोनेश शाह ने इस मौके पर कहा कि सम्मेलन में दुग्ध उत्पादों की पोषणीयता और दुग्ध क्षेत्र में कक्ष स्थापित किया गया है जो राज्यों के साथ समन्वय करके उनकी जरूरतें पूरी कर रहा है। वह स्वयं राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों से लम्पी रोग के प्रभाव के बारे में जानकारी लेते रहते हैं।

विशेषज्ञों के अनुभवों से देश में इस व्यवसाय से जुड़े लोग और किसान बहुत लाभान्वित होंगे। दुग्ध उत्पादन और व्यवसाय में अग्रणी देशों की तकनीक ज्ञान-समझकर देश में उसका अधिकतम लाभ उठाया जायेगा। रूपाला ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पशुओं में फैले लम्पी रोग पर नियंत्रण किया जा रहा है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इसकी वैक्सीन उपलब्ध है। केन्द्र सरकार प्रभावित राज्यों से निरंतर संपर्क में है और दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जो राज्यों के साथ समन्वय करके उनकी जरूरतें पूरी कर रहा है। वह स्वयं राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों से लम्पी रोग के प्रभाव के बारे में जानकारी लेते रहते हैं।

## बैंकिंग समूह ने शेयर बाजार को गिरावट से उबार

मुंबई। आसमान छूती महंगाई को काबू में करने के लिए यूरोपीय केंद्रीय बैंक ( ईसीबी ) के ब्याज दरों में बढ़ोतरी की पूरी तैयारी से वैश्विक बाजार के कमजोर रुख के बावजूद स्थानीय स्तर पर अर्थ के साथ बैंकिंग समूह के मजबूत प्रदर्शनों की बदौलत शेयर बाजार पिछले दो दिन की गिरावट से उबरते हुए आज एक प्रतिशत से अधिक की तेजी पर रहा। रिजर्व बैंक के इंफ्लेट्रकॉर पर व्यय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने से देश को आपूर्ति पक्ष आधारित महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलने के बयान और आईसीआईसीआई बैंक के इंफ़ा बॉन्ड के जरिये 10 हजार करोड़ रुपये पूंजी जुटाने की तैयारी से बैंकिंग समूह में सबसे अधिक 1.94 प्रतिशत का उछाल आया, जिससे बीएसएफ का तीस शेयरों वाला सेवेटी स्टाकअंक संसेक्स 659.31 अंक की उछाला लगाकर 59688.22 अंक सेंटी-नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ( एनएसई ) का निपटी 174.30 अंक उछलकर 17798.70 अंक पर पहुंच गया। बीएसई का मिडकैप 0.29 प्रतिशत बढ़कर 25,895.23 अंक और स्मॉलकैप 0.60 प्रतिशत मजबूत होकर 29,474.63 अंक पर रहा। इस दौरान बीएसई में कुल 3589 कंपनियों

के शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 2066 में लिवाली जबकि 1397 में बिकवाली हुई वहीं 126 में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह एनएसई में 33 कंपनियों में तेजी रही जबकि 16 गिर वहीं एक अपरिवर्तित रही। रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक डॉ. सीतीकांठा पटनायक ने आज एक कार्यक्रम में कहा कि बुनियादी ढांचे पर व्यय पर ध्यान केंद्रित करने से देश को दीर्घकालिक आपूर्ति पक्ष आधारित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने बीएसई को बताया कि उसने इंफ़ा बॉन्ड के माध्यम से 10 हजार करोड़ रुपये पूंजी जुटाने संबंधी प्रस्ताव निदेशक मंडल को भेजा है। इसके बाद उसके शेयर सार्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। इससे बीएसई में बैंकिंग समूह में सबसे अधिक 1.94 प्रतिशत लिवाली हुई। साथ ही तेरह अन्य समूह में भी तेजी देखी गई। बेसिक मेटैरियल्स 0.53, वित्त 1.54, आईटी 1.02, दूरसंचार 0.71, ऑटो 0.62, केपिटल गूड्स 0.65 और बैंक समूह के शेयर 1.04 प्रतिशत उतर गया पर रहे। ऊंची मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि आज ईसीबी ब्याज दरों में 0.75 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है।

इससे विदेशी ब्याज दरों का रुख नकारात्मक रहा। इस दौरान ब्रिटेन का एफटीएसई 0.30 और जापान का निक्केई 2.31 प्रतिशत चढ़ गया जबकि जर्मनी का डैक्स 0.16, हांकांग का हैंगसेंग 1.00 और चीन का शंघाई कोंपोजिट 0.33 प्रतिशत उतर गया। शुरुआती कारोबार में संसेक्स 346 अंक की तेजी के साथ 59,374.99 अंक पर खुला लेकिन मामूली बिकवाली से थोड़ी देर बाद 59,315.71 अंक के निचले स्तर पर रहा। लिवाली की बदौलत कारोबार बैंक ने ब्याज चरण में यह 59,711.96 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अंत में पिछले दिवस के 59,028.91 अंक के मुकाबले 1.12 प्रतिशत चढ़कर 59,688.22 अंक पर रहा। निपटी भी 124 अंक मजबूत होकर 17,748.15 अंक पर खुला और सत्र के दौरान 17,691.95 अंक के निचले जबकि 17,807.65 अंक के उच्चतम स्तर पर रहा। अंत में पिछले सत्र के 17,624.40 अंक की तुलना में 0.99 प्रतिशत की बढ़त लेकर 17,798.75 अंक पर रहा। इस दौरान संसेक्स में छह कंपनियों की 1.63 प्रतिशत तक की गिरावट को छोड़कर शेष 24 में तेजी रही।



## शार्ट न्यूज

### रोयल रेंजर्स की दमदार जीत

नयी दिल्ली। रॉयल रेंजर्स ने मैन ऑफ द मैच स्त्रीया बक्शी, मकनीनो डेली, रवि राज और मुन्तबा खान के शानदार गोलों की मदद से अर्जेंट किए। विजेता टीम ने 15 मैचों में 27 अंक जुटा लिये हैं। पराजित टीम के गोल कप्तान मूनथंग और इमरान खान ने किए। मैच दर मैच निखरते रॉयल रेंजर्स बल्लब को खाता खोलने के लिए मात्र 11 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ी। कागो के मकनीनो डेली ने खूबसूरत गोल जमा कर अपनी टीम को बढ़त दिलाई तो 43वें मिनट में रविराज सिंह ने गोली के ऊपर से दूसरा गोल किया। पहले हाफ में सुस्त नजर आई हिंदुस्तान ने दूसरे हाफ की शुरुआत के बेहतरीन गोल से की लेकिन 64वें मिनट में एस बक्शी ने लंबी दूरी से गोल बंद कर वाह वाह लूटी और रेंजर्स को 3-1 से आगे कर दिया। रेंजर्स का चौथा गोल मुन्तबा ने जमाया। प्रीमियर लीग में शुक्रवार को दो मैच खेले जाएंगे। पहला मैच तरुण संघा और रेंजर्स एससी के बीच खेला जायेगा, जबि दूसरे मैच में वायु सेना और गढ़वाल एफसी का मुकाबला होगा।

### हार के बाद रैकेट तोड़ने के लिये किर्गिजोस पर लगा जुर्माना

न्यूयॉर्क। ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी निक किर्गिजोस पर यूएस ओपन क्वार्टरफाइनल में कारेन खचानोव से हारने के बाद रैकेट तोड़ने के लिये 14,000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। खचानोव ने बुधवार को खेले गये क्वार्टरफाइनल में किर्गिजोस को 7-5, 4-6, 7-5 6-7(3) 6-4 से मात दी थी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हार के बाद झुंझलाकर दो रैकेट आर्थर ऐश स्टेडियम में पटककर तोड़ दिये थे। यह जुर्माना इस साल टूर्नामेंट में लगाया गया सबसे बड़ा जुर्माना है और न्यूयॉर्क में अपने इन पांच अपराधों के लिए किर्गिजोस पर कुल 32,500 डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। किर्गिजोस पर लगा यह जुर्माना यूएस ओपन में उनके द्वारा कमाये गये 4,73,200 डॉलर से काटा जाएगा। फ्लोरिं ग्रीन में 16वें राउंड में दुनिया के नंबर एक दानिल मेदेवेदेव को हराने वाले किर्गिजोस ने क्वार्टरफाइनल की शिकस्त के बाद कहा कि न्यूयॉर्क में उनके सभी प्रयास बेकार हो गये। उन्होंने कहा, ग्रैंड स्लैम में लोगों को सिर्फ यही याद रहता है कि आप जीते हैं या हारे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इस इवेंट में विफल हो गया हूँ।

### जैम्मा के पंजे से ऑस्ट्रेलिया विजयी

केर्नुस। ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ (61) के अर्धशतक के बाद एडम जैम्मा (पांच विकेट) की शानदार गेंदबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड को दूसरे एकदिवसीय मैच में गुरुवार को 113 रन से मात देकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में नौ विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाने के बाद न्यूजीलैंड को 82 रन पर समेट दिया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले मैच को तरह ही इस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी क्रम को जल्द पवेलियन लौटाया। ऑस्ट्रेलिया के 54 रन पर पांच विकेट गिरने के बाद स्मिथ ने ग्लेन मैक्सवेल के साथ 49 रन की बहुमूल्य साझेदारी की। मैक्सवेल ने 50 गेंदों पर एक चौका और एक छक्का लगाकर 25 रन बनाये, जबकि स्मिथ ने 94 गेंदों पर पांच चौकों और एक छक्के की बदौलत 61 रन की पारी खेली। 37वें ओवर में आठवें विकेट के रूप में स्मिथ के आउट होने के बाद मिचेल स्टार्क (38 नाबाद), एडम जैम्मा (16) और जॉश हेजलवुड (23 नाबाद) ने कमाबतों को 195 रन के सम्मानजनक स्तर तक पहुंचाया। ट्रेट बोल्ट ने 10 ओवर में 38 रन देकर चार विकेट लिये जबकि मैट हेनरी ने 10 ओवर में 33 रन के बदले तीन विकेट झटकें। न्यूजीलैंड 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताश के पत्तों की तरह रह गयी। ऑस्ट्रेलिया की धारदार गेंदबाजी की बदौलत सात कीवी बल्लेबाज 10 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सके। कप्तान केन विलियमसन ने जैम्मा की गेंद पर पगबाधा होने से पहले सर्वाधिक 17 रन बनाये। इसके अलावा मिचेल सैंटरन 16 रन बनाकर नाबाद रहे।

### स्वियातेक साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में

न्यूयॉर्क। विश्व की नंबर एक टेनिस खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्वियातेक ने यूएस ओपन क्वार्टरफाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराकर साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्वियातेक ने बुधवार को आर्थर ऐश स्टेडियम में आठवीं सीड पेगुला को 6-3, 7-6(4) से हराया। पोलैंड की स्वियातेक ने फेंच ओपन 2022 खिताब जीतने से पहले साल के पहले ग्रैंड स्लैम आयोजन ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल तक सफल किया था। स्वियातेक 2016 में सेरेना विलियमस के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टॉप सीड खिलाड़ी हैं। अब वह सेमीफाइनल में अरीना सबालेन्का का सामना करेंगी, जो चेक गणराज्य की केरोलीना प्लिस्कौवा को हराकर आ रही हैं। स्वियातेक आमने-सामने के मुकाबलों में सबालेन्का से 3-1 से आगे हैं। सबालेन्का ने पिछले साल के डब्ल्यूटीए फाइनल में स्वियातेक को हराया था, जबकि टॉप सीड स्वियातेक ने अपनी शानदार फॉर्म की बदौलत उन्हें 2022 में तीन बार मात दी है।

### मैराथन मुकाबले में अल्काराज ने सिनर को मात दी

न्यूयॉर्क। स्पेन के युवा सनसनी खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने गुरुवार को ऐतिहासिक मुकाबले में इटली के जैफिन सिनर को मात देकर यूएस ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनायी। अल्काराज ने पांच घंटे 15 मिनट चले क्वार्टरफाइनल मैच में सिनर को 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3 से हराया। यह मैच अमेरिकी समयानुसार देर रात 2:50 बजे समाप्त हुआ जो यूएस ओपन के इतिहास में सबसे ज्यादा देर तक चला मैच है। इससे पहले तीन मैच देर रात 2:26 बजे तक खेले जा चुके हैं। यूएस ओपन इतिहास का सबसे लंबा मैच 1992 में स्टेफन एडबर्ग और माइकल चेंग के बीच खेला गया सेमीफाइनल था जो पांच घंटे 26 मिनट बाद समाप्त हुआ था। अल्काराज ने सिनर के खिलाफ चौथे सेट में 4-5 पर मैच पॉइंट बचाया और एटीपी रैंकिंग में सबसे कम उम्र का नंबर एक खिलाड़ी बनने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। अल्काराज ने मैराथन मुकाबले में जीत के बाद कहा, मुझे अब भी नहीं पता कि मैंने यह कैसे किया। आपको अपने ऊपर विश्वास करना होता है। मैंने अपने खेल पर विश्वास किया। मैच को समाप्त करना बहुत मुश्किल था। मैंने शांत रहने की कोशिश की, हालांकि यह उस समय बहुत कठिन था। उन्होंने कहा, मैं ग्रैंड स्लैम में अपने पहले सेमीफाइनल में पहुंचने की उपलब्धि का आनंद लूंगा, और कल मेरे पास मैच के बारे में सोचने का समय होगा।

### टी20 विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भारत वॉर्म-अप मैच खेलेगा


दुबई। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने गुरुवार को अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप से पहले सभी 16 टीमों के लिये अभ्यास (वॉर्म अप) मैचों की घोषणा की। आईसीसी ने बताया कि ये सभी मैच ब्रिस्बेन और मेलबर्न में खेले जाएंगे। पहले दौर की टीमों अपने वॉर्म अप मैच 10 और 13 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और जंक्शन ओवल में खेलेगी। सुपर-12 राउंड में सीधे प्रवेश करने वाली टीमों अपने वॉर्म-अप मुकाबले 17 और 19 अक्टूबर को ब्रिस्बेन के गाभा में खेलेंगी, जिसमें भारत भी शामिल है। पहला अभ्यास मैच 10 अक्टूबर को जंक्शन ओवल में वेस्टइंडीज और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होगा। स्कॉटलैंड फिर नीदरलैंड और श्रीलंका के साथ एक ही दिन में दो अन्य मैचों में उसी स्थान पर खिलाब्धे से खेलेगा। भारतीय टीम अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 अक्टूबर को खेलेगी। रोहित शर्मा की टीम दो दिन बाद 19 अक्टूबर को न्यूजीलैंड का सामना करेगी। आईसीसी टी20 पुरुष विश्व कप की शुरुआत 16 अक्टूबर को श्रीलंका बनाम नामीबिया मुकाबले से होगी। भारत अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा।

## एफआईएच ने विश्व कप 2023 के लिए ड्रां घोषित किए, भारत पूल-डी में

भुवनेश्वर। भारत को ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में होने वाले अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिये पूल-डी में इंग्लैंड, वेल्स और स्पेन के साथ रखा गया है। एफआईएच ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

एफआईएच ने विश्व कप 2023 के लिये यहां जारी ड्रां में टीमों को चार पूलों में बांटा है। हॉकी की शीर्ष संस्था ने बताया कि एक जून 2022 की रैंकिंग के आधार पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और नीदरलैंड को अपने-अपने पूल के शीर्ष पर रखा

गया है। मेजबान भारत पूल-डी की अगुवाई करेगा। भारत (विश्व नंबर-5) इस पूल में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाली टीम है। यहां उसका सामना इंग्लैंड (विश्व नंबर-6), स्पेन (विश्व नंबर-14) और विश्व कप में पहली बार भाग ले रही वेल्स (विश्व नंबर-16) से होगा। पूल-ए में अर्जेंटीना, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका के साथ विश्व की नंबर एक टीम ऑस्ट्रेलिया है जिसने विश्व कप 2018 में कांस्य पदक जीता था। विश्व की नंबर दो टीम और गत चैंपियन बेल्जियम को 2006 विश्व चैंपियन जर्मनी, कोरिया और जापान



के साथ पूल-बी में जगह दी गई है। पूल सी की अगुवाई विश्व कप 2018 की फाइनलिस्ट नीदरलैंड करेगी। वह इस पूल में न्यूजीलैंड और मलेशिया के साथ-साथ चिली का भी सामना

करेगी, जो वेल्स की तरह ही पहली बार एफआईएच हॉकी पुरुष विश्व कप में भाग ले रही है। एफआईएच के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) थियरी वेल को

निगरानी में हुए ड्रां समारोह में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और एफआईएच के कार्यकारी अध्यक्ष सेफ अहमद के साथ-साथ ओडिशा खेल और युवा सेवाएं मंत्री तुषारकांति बेहरा मौजूद रहे। पटनायक ने ड्रां जारी होने के बाद कहा, हमें इस तरह के उत्कृष्ट आयोजन के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ हॉकी टीमों और खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए हमेशा बहुत गर्व होता है। इस बार हम दुनिया को भुवनेश्वर के हमारे शानदार कलिंगा स्टेडियम के साथ-साथ राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में भी आमंत्रित कर रहे हैं।

यह नया स्टेडियम हॉकी के प्रति हमारी मजबूत प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 जनवरी 2023 से किया जाएगा। पूल ए: ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका पूल बी: बेल्जियम, जर्मनी, कोरिया, जापान पूल सी: नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, मलेशिया, चिली पूल डी: भारत, इंग्लैंड, स्पेन, वेल्स को टीम शामिल है।

## कोहली का विराट शतक, भारत ने जीत के साथ समाप्त किया एशिया कप अभियान

दुबई। भारत ने विराट कोहली (122 नाबाद) के बहुप्रतीक्षित शतक के बाद भुवनेश्वर कुमार (चार रन, पांच विकेट) की घातक गेंदबाजी की बदौलत अफगानिस्तान को एशिया कप के सुपर-4 मैच में गुरुवार को 101 रन से मात दी।

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 212 रन बनाये थे, जिसके जवाब में अफगानिस्तान पूरे ओवर खेलकर 111 रन ही बना सकी।

कोहली ने आखिरकार अपना 71वां सैकड़ा जमाते हुए 61 गेंदों पर 12 चौकों और छह छक्कों की बदौलत 122 रन बनाये। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय में कोहली का पहला शतक है। कोहली का यह अंतरराष्ट्रीय शतक 1020 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आया है, जबकि उनका आखिरी शतक 23 नवंबर 2019 को बंगलादेश के खिलाफ खेले गये टेस्ट मैच में आया था।

यह फाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी भारतीय टीम का एशिया कप 2022 में आखिरी मैच था, जिसे



जीतकर उसने अपने अभियान को समाप्त किया। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को केएल राहुल और विराट कोहली ने शानदार शुरुआत दिलायी और पहले विकेट के लिये 119 रन जोड़े। राहुल ने आउट होने से पहले 41 गेंदों पर छह चौकों और दो छक्कों की बदौलत 62 रन बनाये। तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी करने उतरे सुर्यकुमार यादव ने पहली गेंद पर छक्का लगाया लेकिन दूसरी गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गये। इसके बाद विकेट पर आये ऋषभ पंत ने कोहली का साथ दिया और दोनों ने चौथे विकेट के लिये 42 गेंदों पर 87

## चौबे ने महिला फुटबॉल के विस्तार के लिये अंडर-17 लीग की घोषणा की

### एजेंसी

कोलकाता। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने गुरुवार को महिला फुटबॉल का विस्तार करने और कप्तान उम्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए अंडर-17 महिला लीग शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की।

चौबे ने यहां संवाददाताओं से कहा, हम जल्द ही भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से भारत में अंडर-17 महिला लीग शुरू करने जा रहे हैं। चौबे ने भारतीय फुटबॉल में पूर्ण लैंगिक समानता बनाए रखने का संकट देते हुए कहा कि महासंघ की भारतीय महिला लीग (आईडब्ल्यूएल) में खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम वेतन कैप शुरू करने की योजना है।

उन्होंने कहा, यह सही नहीं है कि फुटबॉलरों के मानदेय में पुरुषों और महिलाओं के स्तर पर भारी अंतर हो। संतुलन बहाल करने के लिए सभी



प्रयास किए जाने चाहिए। चौबे ने कहा कि नव-निर्वाचित समिति भारतीय लाइसेंस प्राप्त कोचों और पेशेवर फुटबॉलरों को एक ऐसे स्तर पर ले जाना चाहती है जहां विश्व स्तर पर उनकी सबसे अधिक मांग हो।

उन्होंने कहा, आज भारतीय व्यवसायी, कॉर्पोरेट अधिकारी, वैज्ञानिक आदि दुनिया में शीर्ष पदों पर काबिज हैं, फिर हमारे कोच और खिलाड़ी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हमारा मानना है कि सही शिक्षा और निर्देश दिए जाने पर वे भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकते हैं। हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए।

# हिमंत बिस्वा सरमा की 'अखंड भारत' टिप्पणी पर पाकिस्तान का आया बयान

### नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को यह यात्रा भारत से बाहर पाकिस्तान-बांग्लादेश में करनी चाहिए और अखंड भारत के लिए कार्य करना चाहिए। इसी पर अब पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आया है। पाकिस्तान ने बुधवार को हिमंत बिस्वा सरमा के 'अखंड भारत' के विचार का प्रचार करने संबंधी बयान को खारिज कर दिया है।

### 'पाकिस्तान और बांग्लादेश को एकीकृत करें'

दरअसल, पाकिस्तान के विदेश विभाग के एक आधिकारिक बयान में सरमा



की उस टिप्पणी का जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अगर अपने पूर्वजों द्वारा किए गए देश के विभाजन को लेकर कोई पछतावा है तो उन्हें अखंड भारत के निर्माण के लिए भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश को एकीकृत करने का प्रयास करना चाहिए।

### यूक्रेन को सैन्य सहायता के रूप में दो अरब डॉलर आवंटित करेगा अमेरिका

कीव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने यूक्रेन और अन्य यूरोपीय राज्यों के लिए एक अरब डॉलर से अधिक के एक नए सैन्य सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के हवाले से गुरुवार को यह जानकारी दी गयी। रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले दिन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटीनी ब्लिंकन नए सैन्य सहायता पैकेज के बारे में यूक्रेनी नेतृत्व को सूचित करने के लिए एक अघोषित यात्रा पर कीव पहुंचे। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए सहायता पैकेज को कांग्रेस की मंजूरी मिलना बाकी है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार इसमें यूक्रेन और शेष 18 अन्य यूरोपीय देशों के लिए एक अरब डॉलर का आवंटन शामिल है जो रूस की सीमा पर हैं या 'भविष्य में रूसी आक्रमण के लिए सबसे संभावित जोखिम' हैं। यह पैसा उससे और जाएगा जिसे विदेश विभाग अमेरिका निर्मित हथियारों की खरीद के माध्यम से नाटो के साथ सैन्य एकीकरण कहता है।

असल में असम के सीएम सरमा ने राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में यह बयान दिया था।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि निरर्थक दावा सत्तारूढ़ भाजपा के हिंदुत्व बहुसंख्यकवादी एजेंडे और इसकी विस्तारवादी मानसिकता की अभिव्यक्ति है, जो अपने देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ पड़ोसी देशों की पहचान और संस्कृति को मिटाना चाहती है।

यह पूरा बवाल तब मचा था जब उन्होंने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पर बयान देते हुए कहा कि अगर भारत जोड़ना ही है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर अखंड भारत

बनाना चाहिए। सरमा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। सरमा ने कहा कि भारत एक है। भारत जुड़ा हुआ है। 1947 में भारत और पाकिस्तान को खंडित किया था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सिलचर से सीरापूर तक हम सब एक हैं।

उन्होंने आगे यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गलती की थी और उन्हें पछतावा है तो अपने ही देश में भारत जोड़ो यात्रा का कोई मतलब नहीं है। आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ने की कोशिश करिए और अखंड भारत बनाइए। भारत वर्ष के विखंडित होने का कोई सवाल नहीं है।

## अपने बयानों पर झुके इमरान खान, महिला जज के खिलाफ अपनी टिप्पणी पर जताया अफसोस

### एजेंसी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले महीने एक रैली के दौरान महिला जज के खिलाफ अपनी भड़काऊ टिप्पणी पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इमरान खान की ओर से भड़काऊ टिप्पणी करने के कुछ घंटे के भीतर ही रैली में पुलिस, न्यायपालिका और अन्य राज्य संस्थानों को धमकी देने के लिए आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

कोर्ट के भेजे अपने जवाब में इमरान खान ने है, टिप्पणी अनजाने में की गई थी और इसका मतलब उस महिला न्यायाधीश को और से ईशारा करना नहीं था जिसका वो बहुत सम्मान करते हैं। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कभी इरादा नहीं था और अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, इसका मुझे गहरा खेद है। उनके बयान का मतलब न्यायाधीश को धमकाना नहीं था और वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते।



### न्यायपालिका के लिए उनके मन में बहुत सम्मान

अरअसल, 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान ने अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी, जिन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। खान ने अदालत को यह भी आश्वासन दिया की न्यायपालिका के लिए उनका मन में बहुत सम्मान है और उनका मानना है कि न्यायाधीश न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कार रहे हैं।

### हाई कोर्ट की पांच जजों की पीठ कर रही है सुनवाई

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, न्यायपालिका के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है, पाकिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के लिए दृढ़ता से खड़े हैं और महिला न्यायाधीशों के अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व के विचार का समर्थन करते हैं। अन्तमानका के इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पांच सदस्यों वाली पीठ सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि वह उम्मीद कर रहे थे कि इमरान खान अपने जवाब में गलती की बात स्वीकार करेंगे।

## महारानी एलिजाबेथ का डॉक्टरों की निगरानी में उपचार

लंदन। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का स्कॉटलैंड के बाल्मोरल में डॉक्टरों की निगरानी में उपचार चल रहा है। बकिंघम पैलेस ने एक बयान में कहा, आज सुबह आगे के मूल्यांकन के बाद महारानी के डॉक्टर उनकी स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं और उन्हें चिकित्सकीय देखरेख में रहने की सलाह दी है। क्लेरेंस हाउस और डॉकिंग्टन पैलेस ने कहा कि प्रिंस चार्ल्स, उनकी पत्नी कैमिला और प्रिंस विलियम महारानी का हालचाल लेने बालमोरल जा रहे हैं। डॉक्टरों द्वारा आराम करने की सलाह दिए जाने के बाद 96 वर्षीय महारानी ने बुधवार रात अपनी प्रिंवी कार्डिसिल की बैटक स्थिति कर दी। निवर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद, महारानी ने मंगलवार को अपने 70 साल के शासनकाल में पहली बार, बालमोरल में सुश्री लीज टूस को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया।

### भारत-जापान सैन्य अभ्यास बढ़ाने पर सहमत

टोक्यो 08 सितंबर (वार्ता) चीन के बढ़ते हौसले के बीच भारत एवं जापान ने गुरुवार को अपने संयुक्त सैन्य अभ्यास के दायरे एवं जटिलताओं को और बढ़ाने पर सहमति जताते हुए इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र, खुले, नियम-आधारित तथा समावेशी हिंद-प्रशांत के लिए उनके मजबूत संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। द्वितीय भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने हर्ष के साथ कहा कि हवाई सेवाएं भारत-जापान युद्धाभ्यास के शुरुआती संचालन के लिए मिलकर काम कर रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत के बाद एक बयान में कहा, आज की चर्चा के दौरान, हमने दोनों पक्षों के बीच सैन्य सहयोग और आदान-प्रदान में सैन्य प्रगति पर ध्यान दिया। हमने अपने द्विपक्षीय अभ्यासों के दायरे और जटिलताओं को और बढ़ाने की साझा इच्छा साझा की। भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि दोनों पक्षों ने अधिक जटिल और परिष्कृत द्विपक्षीय अभ्यास की दिशा में निरंतर प्रयास करने के अपने साझा इरादे भी व्यक्त किए। सिंह ने कहा, हमने समुद्री डोमेन जागरूकता सहित समुद्री सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों में इस बात पर आम सहमति है कि राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के आधार पर स्वतंत्र, खुले, नियम-आधारित और समावेशी हिंद-प्रशांत के लिए एक मजबूत भारत-जापान संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं।

### दुनिया भर में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय में गिरावट: संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि दशकों की कड़ी मेहनत में जीवन प्रत्याशा दर, शिक्षा और आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में जो प्रगति हासिल की गयी थी वह कोरोना महामारी के कारण बाधित हुई है। संयुक्त राष्ट्र की नयी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में पिछले दो वर्षों में 10 में से नौ देश पिछड़ गए हैं। वैश्विक विकास में गिरावट के लिए कोविड-19 के अलावा यूक्रेन-रूस युद्ध और जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस वर्ष मानव विकास सूचकांक के शीर्ष पर 84 साल की जीवन प्रत्याशा के साथ विक्टोरिया लैंड है। वहां शिक्षा में औसतन 16.5 साल शिक्षा में गुजरता और औसत वेतन 66,000 डॉलर है। इसके उलट दक्षिण सूडान है जहां जीवन प्रत्याशा केवल 55 वर्ष है, लोग औसतन केवल 5.5 वर्ष स्कूल में बिताते हैं और प्रति वर्ष 768 डॉलर कमाते हैं। सूचकांक में शामिल 191 देशों में से अधिकतर को झटका लगा है, विशेष रूप से जीवन प्रत्याशा में, विकास के स्तर को 30 साल की प्रवृत्ति को उलटते हुए ये देश 2016 में देखे गए स्तर पर वापस आ गये हैं। इसका प्रभाव हालांकि असमान दिख रहा है और दो-तिहाई अमीर देशों ने पिछले साल वापसी कर ली जबकि अधिकांश अन्य देशों में यह गिरावट जारी रही। बीबीसी ने बताया कि अमेरिका में 2019 के बाद से जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में दो साल से अधिक की गिरावट आई है। अन्य देशों में गिरावट बहुत अधिक है। इस वर्ष का सूचकांक 2021 के आंकड़ों पर आधारित है।



युवाओं में जिम जॉइन करने का बड़ा फ्रेज है। जिसे देखो वही जिम जा रहा है, कोई तरह-तरह की कसरतें कर रहा है, तो कोई दौड़ लगा रहा है। युवा ही क्यों बच्चे और बूढ़े भी अपनी शारीरिक फिटनेस के लिए खूब सक्रिय रहने लगे हैं।



## इमोशनल फिटनेस

इमोशनल फिटनेस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपनी चर्चित किताब इमोशनल फिटनेस-डिस्कवरींग अवर नैचुरल हीलिंग पावर में लेखिका जेनिस बर्गर ने लिखा है, आप चाहे जितनी एक्सरसाइज करें, सब व्यर्थ है, अगर आप अपनी आंतरिक अनुभूतियों के सम्पर्क में आने से डरते हैं और एंजाइटी जैसी विपदाओं से घबरा जाते हैं क्योंकि ये चीजें आपको कमजोर करती हैं।

**न दबाएं भावनाएं**  
हमारा सामाजिक ढांचा हमें अपनी भावनाओं को दबाकर रखना सिखाता है। हमें अपना दर्द और अपनी तकलीफें छिपाकर रखने को कहा जाता है। हमें कोई सवाल भीतर तक हिला डालता है और हम फिर भी उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं।

जरा सोचिए आपके शरीर में विषाक्त तत्व इकट्ठा होते रहें और आप उनका समय-समय पर निष्कासन न करें तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, हम बीमार पड़ जाएंगे। मन में दबी कुटित, बुरी, उदासी भरी या अच्छी और उमंग

भरी भावनाओं का भी उत्सर्जन या प्रकाशन न किया जाए, तो हम मानसिक रूप से ही नहीं शारीरिक रूप से भी अवश्य ही बीमार पड़ जाएंगे। क्योंकि मन स्वस्थ नहीं रहेगा, तो तन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। भावनाओं के वेग और उद्वेग को दबाकर रखना ठीक नहीं है।

**करिए इमोशनल वर्कआउट**  
अमरीका की टी इमोशनल फिटनेस एकेडमी के प्रबंध निदेशक पॉलबर्ड कहते हैं, दिखने में बिलकुल फिट नजर आने वाले एथलीट भी डिप्रेशन व अन्य मानसिक समस्याओं से पीड़ित हो जाते हैं। इमोशनल स्ट्रेथ के बिना फिजिकल फिटनेस कोई काम की नहीं। लोग अच्छी अनुभूति पाने के लिए वर्क आउट करते हैं।

**ऐसे पाएं इमोशनल फिटनेस**  
दस मिनट की इमोशनल जॉइंग करें। दिमाग में सभी तरह के विचार आने दें। हंसें, मेडिटेट करें और रिलैक्स करें। कम से कम 15 मिनट लम्बी सांसें खींचें और बाहर फेंकें। दिमाग को बीती बातों या भविष्य की चिंताओं में

न उलझने दें। संयमित मात्रा में दिया खबन देखें। अपना आत्मविश्वास परखने के लिए समस्याएं सुलझाने की मानसिक कसरत करें। रोज समीक्षा करें कि आपके पास क्या है और कौन सी खूबसूरत चीजें हैं। आशावादी बनें और आप क्या कर सकते हैं, इस पर फोकस करें, सकारात्मक परिणामों की उम्मीद करें। अपनी दिनचर्या में कुछ पल अपने लिए भी निकालें, उस दौरान आप अपनी पसंद का कोई काम कर सकते हैं जैसे बागवानी करना, सामाजिक काम करना। अपना कुछ समय बच्चों के साथ भी बिताएं।

**फिटनेस की परिभाषा**  
कनाडा के बॉडी बिल्डर और फिटनेस एक्सपर्ट स्कॉट एबेल सच्ची फिटनेस को इस प्रकार परिभाषित करते हैं- दैनिक जीवन की जरूरतों और नियति की उलटफेर को आसानीपूर्वक निभा पाना। आपातकालीन स्थितियों में यदि अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता हो, तो आवश्यक ऊर्जा की कमी महसूस न करना।

## त्वचा को चमकाएं चारोली अपनाए



**चमकती त्वचा** - चारोली को गुलाब जल के साथ सिलबट्टे पर महीन पीस कर लेप तैयार कर चेहरे पर लगाएं। लेप जब सूखने लगे तब उसे अच्छी तरह मसलें और बाद में चेहरा धो लें। इससे आपका चेहरा चिकना, सुंदर और चमकदार हो जाएगा। इसे एक सप्ताह तक हर रोज प्रयोग में लाएं। बाद में सप्ताह में दो बार लगाते रहें। इससे आपका चेहरा लगेगा हमेशा चमकदार।

**मुंहासे** - नारंगी और चारोली के छिलकों को दूध के साथ पीस कर इसका लेप तैयार कर लें और चेहरे पर लगाएं। इसे अच्छी तरह सूखने दें और फिर खूब मसल कर चेहरे को धो लें। इससे चेहरे के मुंहासे गायब हो जाएंगे। अगर एक हफ्ते तक प्रयोग के बाद भी असर न दिखाई दे तो लाभ होने तक इसका प्रयोग जारी रखें।

**गीली खुजली** - अगर आप गीली खुजली की बीमारी से पीड़ित हैं तो 10 ग्राम सुहागा पिसा हुआ, 100 ग्राम चारोली, 10 ग्राम गुलाब जल इन तीनों को साथ में पीसकर इसका पतला लेप तैयार करें और खुजली वाले सभी स्थानों पर लगाते रहें। ऐसा करीबन 4-5 दिन करें। इससे खुजली में काफी आराम मिलेगा व आप ठीक हो जाएंगे।

**शीत पित्ती** - शरीर पर शीत पित्ती के ददोड़े या फुंसियां होने पर दिन में एक बार 20 ग्राम चिरौजी को खूब चबा कर खाएं। साथ ही दूध में चारोली को पीसकर इसका लेप करें। इससे बहुत फायदा होगा। यह नुस्खा शीत पित्ती में बहुत उपयोगी है।

## ऑक्सीजन ठीक करती है ब्रेन



तेल अवीव के वैज्ञानिकों ने अपने नवीन अनुसंधान में पाया है कि ऑक्सीजन, स्ट्रोक, दुर्घटना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से हुए ब्रेन डैमेज को पुन-ठीक कर देती है। तेल अवीव यूनीवर्सिटी में फिजिक्स और एस्ट्रोनोमी के प्रोफेसर इशेल बेन जैकब ने स्ट्रोक प्रभावित मरीजों को ऑक्सीजन से भरे चेम्बर्स में हाइपर बैनिक ऑक्सीजन थेरेपी (एचबीओटी) दी इससे उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई।

दो महीनों के उपचार के बाद उन मरीजों के ब्रेन की तस्वीरों के विश्लेषण करने पर पाया कि मस्तिष्क कोशिकाओं में उल्लेखनीय गतिविधि नोट की गई। लकवा पीड़ित मरीजों के हाथ पैरों में संवेदना लौट आई और उन्हें बोलने में भी आराम महसूस होने लगा।

इससे जो लोग अपनी दिनचर्या दूसरों के सहारे कर पाते थे वे अब अपने आप नहाने, खाना बनाने, सीढ़ियां चढ़ने लगे और किताबें पढ़ने में समर्थ हो गए। शार्ड इफ्राती के अनुसार मेटाबॉलिक गड़बड़ी की वजह से न्यूरोन जीवित तो रहते हैं, लेकिन उनमें पर्याप्त ऊर्जा के अभाव में वे इलेक्ट्रिक सिग्नल को पैदा नहीं कर पाते। एचबीओटी इन ब्रेन सेल्स में ऊर्जा पहुंचाने का काम करती है।

**चारोली का उपयोग अधिकतर मिटाई में जैसे हलवा, लड्डू, खीर, पाक आदि में सूखे मेवों के रूप में किया जाता है। इसका शरीर की सुंदरता कायम रखने में भी उपयोग किया जाता है। पेश है कुछ नुस्खे-**

## खुशबू से बनाएं निरोगी काया

सुगंध द्वारा चिकित्सा, आयुर्वेद का ही हिस्सा है, जिसे नई वैज्ञानिक शोधों के दौरान भुला दिया गया था, लेकिन आज फिर से इसे अपनाया जाने लगा है। यह एक प्राकृतिक तरीका है, जिसके न कोई साइड इफेक्ट्स हैं न आपटर इफेक्ट्स।

**फूलों से रोग निदान**  
रोगों के निदान में पुष्प दवा का कार्य करते हैं। पुष्पों की सुगंध से जो अति सूक्ष्म परमाणु निकलते हैं वे स्वतः ही हमारी नासिका के द्वारा सांस नली में जाकर मस्तिष्क पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, जो हमारे शरीर, मन और मस्तिष्क के लिए प्राकृतिक औषधि का कार्य करते हैं। पुष्पों के रंगों एवं विभिन्न प्रकार की सुगंध का सीधा-सीधा असर शरीर के विभिन्न भागों पर होता है, जो तनाव, अनिद्रा एवं थकान से भरे मानव शरीर एवं मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा एवं शांति प्रदान करती है।

पुष्पों की सुगंध, रंग तथा उनसे निर्मित उत्पादों के द्वारा जो चिकित्सा पद्धति अपनाई जाती है, उसे ही एरोमा-थेरेपी कहा जाता है। पेड़, पौधे, पत्तियां, जड़, तना, फूल, फूल, सज्जियां, मसाले आदि से प्राप्त वस्तुओं से सत निकाला जाता है, जिसे एरोमैथियल ऑयल कहते हैं। यह इतना असरदार होता है कि इसमें किसी रासायनिक तत्वों के मिश्रण की आवश्यकता नहीं होती। ये एरोमैथियल

ऑयल एंटी सेप्टिक, एंटी बेक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटीफंगस, एंटीरूमेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीन्यूरोलॉजिक, एंटीटॉक्सिक, एंटीडिप्रेसेंट और डियो का काम करते हैं। फूलों के औषधीय प्रयोग गुलाब - गुलाब का गुलकंद पेट की गर्मी को शांत करता है तथा हृदय रोगों के लिए अच्छा है। आंखों में लाली, सूजन होने पर गुलाब जल से आंखें धोएं लाभ होता है। गुड़हल - लाल गुड़हल का फूल का रस झड़ते हुए के शो

के लिए अचूक दवा है। गुड़हल के फूल का रस बालों में 1 घंटे लगाकर बाल धो लें। यह बालों के लिए प्राकृतिक कलर का भी काम करेगा। कमल - कमल के पुष्प का प्रत्येक अंग औषधि का कार्य करता है। कमल की डंडी की सब्जी खाने से शरीर में लौह तत्व का निर्माण होता है। कमल की पंखुडियों को पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की कान्ति बढ़ती है। चमेली - चमेली के पुष्प से निर्मित तेल दंत रोग, चर्मरोग में फायदा होता है। फोड़े-फुंसी होने पर चमेली का तेल लगाने से लाभ मिलता है। चमेली के पत्ते चबाने से मुख की दुर्गंध एवं मुंह के छाले दूर होते हैं। केसर - केसर को त्रिदोषों, वात-पित्त एवं कफ का शमनकर्ता कहा गया है। केसर का तिलक लगाने से मस्तिष्क को शांति मिलती है। हल्के गुग्गुने दूध में केसर डालकर पीने से पुरानी खांसी एवं कफ दूर होता है तथा शरीर में बल, वीर्य, शक्ति एवं स्फूर्ति की वृद्धि होती है। गेंदा - गेंदे के पीले फूलों को लिवर की सूजन, चर्म रोग ए व

पथरी रोगों में इसका प्रयोग लाभकारी होता है। रात की रानी - रात की रानी का पौधा घर में लगाने से मच्छर इत्यादि घर में नहीं आते हैं। इसकी सुगंध से तनाव एवं अनिद्रा में राहत मिलती है।

**शंखपुष्पी** - शंखपुष्पी का प्रयोग स्मृतिवर्धक होता है। शंखपुष्पी के चूर्ण में मिश्री मिलाकर पीने से स्वास्थ्य, सुंदर मस्तिष्क एवं कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति होती है।

**उपचार में फायदेमंद**  
एरोमैथियल ऑयल तीन प्रकार से लाभदायक है। प्रथम खुशबू से, इनकी सुगंध से मस्तिष्क प्रभावित होकर फौरन सक्रिय हो जाता है। द्वितीय मसाज द्वारा यह त्वचा की भीतरी सतह तक पहुंचकर उसे ठीक करते हैं। तृतीय ये मूड एलीवेटर का काम करते हैं। एरोमैथियल ऑयल के प्रयोग से कई प्रकार के दर्द दूर किए जाते हैं। यह उपचार का एक प्राकृतिक तरीका है, जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते।

